


कौमी पत्रिका

राष्ट्रीय दैनिक अखबार

R.N.I. No. UP-HIN/2007/21472 सम्पादक - गुरचरन सिंह बख्बर वर्ष 18 अंक 15 qaumipatrikahindi 011-41509689, 23315814, 9312262300 गाजियाबाद संवत् 2077-78, पेज (12) मूल्य 3.00 रुपये (हवाई शुल्क 50 पैसे अतिरिक्त)

VISIT:
www.qaumipatrika.in
Email: qpatrika@gmail.com

पीएम मोदी ने युवाओं से की एनसीसी से जुड़ने की अपील



नई दिल्ली, 24 नवंबर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 116वें एपिसोड को संबोधित किया। इसमें पीएम मोदी ने युवाओं से एनसीसी से जुड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एनसीसी दिवस है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं खुद एनसीसी का कैडेट रहा हूँ और इसके अनुभव मेरे लिए अनमोल हैं। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। देश में कहीं भी आपदा होने पर एनसीसी कैडेट आगे बढ़कर मदद करते हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देश युवा दिवस मनाता है। अगले साल स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती है। इसे खास तरीके से मनाया जाएगा और 11-12 जनवरी को दिल्ली में भारत मंडपम में विकसित भारत यूथ लीडर्स डायलॉग का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने लाल किले की प्राचीर से ऐसे युवाओं से राजनीति में आने का आहवान किया है, जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं है, ऐसे एक लाख युवाओं को, नए युवाओं को, राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे। प्रधानमंत्री ने लखनऊ के रहने वाले वीरेंद्र की तारीफ की, जो बुजुर्गों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट में मदद कर रहे हैं। इससे बुजुर्गों को पेंशन लेने में मदद मिली है। इसी तरह भोपाल के महेश की तारीफ की, जो बुजुर्गों को मोबाइल के माध्यम से पेंशन करना सिखा रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने चेन्नई की प्रकृत अकिंगम और बिहार के गोपालगंज की प्रयोग लाइब्रेरी की चर्चा की, जो बच्चों में पढ़ने और सीखने की आदत विकसित कर रही हैं।

संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर पथराव

सिम्मी कौर बख्बर
संभल, 24 नवंबर। संभल की जामा मस्जिद पर हरिहर मंदिर होने के दावे के बाद रविवार को दोबारा सर्वे के दौरान भारी हंगामा और पथराव हुआ। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर और लाठीचार्ज कर स्थिति को नियंत्रित किया। मस्जिद के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है। संभल की जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद ने रविवार को बड़ा रूप ले लिया। मस्जिद पर हरिहर मंदिर होने का दावा किए जाने के बाद यहाँ दोबारा सर्वेक्षण के दौरान हंगामा और जमकर पथराव किया गया। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। रविवार सुबह करीब छह बजे संभल के डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई के साथ एक सर्वे टीम जामा मस्जिद पहुंची। इस दौरान कोर्ट कमिश्नर रमेश राधक की अगुवाई में मस्जिद का सर्वे शुरू हुआ। जैसे ही मस्जिद पर सर्वे को जानकारी स्थानीय लोगों को मिली, मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मस्जिद के बाहर जमा हो गए। मुस्लिम समाज के लोगों ने सुबह-सुबह छुट्टी के दिन सर्वे पर आपत्ति जताई। जल्द ही मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और नाराज भीड़ ने पुलिस को रोकने का प्रयास किया। पुलिस के समझाने के बावजूद भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव लगने से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद मौके पर तैनात पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। स्थिति काबू से बाहर होने पर पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पथराव और हंगामे के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। प्रशासन ने जामा मस्जिद के चारों ओर बैरिकेडिंग कर इलाके को सील कर दिया है। मौके पर डीएम, एसपी और एडीएम समेत जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। आसपास के थायों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद पर दोबारा सर्वे को लेकर हुए विवाद ने रविवार को हिंसक रूप ले लिया। सर्वे के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव और आगजनी कर दी। जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने और लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना में बीस से अधिक पुलिसकर्मी और दो दर्जन लोग चोटिल हो गए। डॉ.राजेंद्र पेंसिया ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। कहा गया है कि संभल तहसील में अगले 24 घंटे तक इंटरनेट सेवाएं टप रहेंगी। इसके साथ ही आठवां तक के विद्यालय कल बंद रहेंगे। संभल बवाल के बीच बीस से अधिक पुलिसकर्मीजखमी हुए हैं। इसमें से एक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पुलिसकर्मी का उपचार हायर सेंटर में चल रहा है। हिंसा में तीन युवकों की मौत हो गई है। भीड़ ने चंडीसी के सीओ को गाड़ी समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी और आग लगा दी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन भीड़ काबू में नहीं आई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग की तो भगदड़ मच गई। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भ?की हिंसा में तीन युवकों की मौत हो गई। कमिश्नर आर्जनेय सिंह ने इसकी पुष्टि की है। हिंसा में सीओ अनुज चौधरी और एसपी के पीआरओ को भी गोली लगी है। मृतकों के परिजनों का दावा है कि पुलिस की गोली से मौत हुई है।

जताई। जल्द ही मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और नाराज भीड़ ने पुलिस को रोकने का प्रयास किया। पुलिस के समझाने के बावजूद भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव लगने से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद मौके पर तैनात पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। स्थिति काबू से बाहर होने पर पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पथराव और हंगामे के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। प्रशासन ने जामा मस्जिद के चारों ओर बैरिकेडिंग कर इलाके को सील कर दिया है। मौके पर डीएम, एसपी और एडीएम समेत जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। आसपास के थायों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद पर दोबारा सर्वे को लेकर हुए विवाद ने रविवार को हिंसक रूप ले लिया। सर्वे के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव और आगजनी कर दी। जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने और लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना में बीस से अधिक पुलिसकर्मी और दो दर्जन लोग चोटिल हो गए। डॉ.राजेंद्र पेंसिया ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। कहा गया है कि संभल तहसील में अगले 24 घंटे तक इंटरनेट सेवाएं टप रहेंगी। इसके साथ ही आठवां तक के विद्यालय कल बंद रहेंगे। संभल बवाल के बीच बीस से अधिक पुलिसकर्मीजखमी हुए हैं। इसमें से एक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पुलिसकर्मी का उपचार हायर सेंटर में चल रहा है। हिंसा में तीन युवकों की मौत हो गई है। भीड़ ने चंडीसी के सीओ को गाड़ी समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी और आग लगा दी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन भीड़ काबू में नहीं आई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग की तो भगदड़ मच गई। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भ?की हिंसा में तीन युवकों की मौत हो गई। कमिश्नर आर्जनेय सिंह ने इसकी पुष्टि की है। हिंसा में सीओ अनुज चौधरी और एसपी के पीआरओ को भी गोली लगी है। मृतकों के परिजनों का दावा है कि पुलिस की गोली से मौत हुई है।



जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने और लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना में बीस से अधिक पुलिसकर्मी और दो दर्जन लोग चोटिल हो गए। डॉ.राजेंद्र पेंसिया ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। कहा गया है कि संभल तहसील में अगले 24 घंटे तक इंटरनेट सेवाएं टप रहेंगी। इसके साथ ही आठवां तक के विद्यालय कल बंद रहेंगे। संभल बवाल के बीच बीस से अधिक पुलिसकर्मीजखमी हुए हैं। इसमें से एक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पुलिसकर्मी का उपचार हायर सेंटर में चल रहा है। हिंसा में तीन युवकों की मौत हो गई है। भीड़ ने चंडीसी के सीओ को गाड़ी समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी और आग लगा दी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन भीड़ काबू में नहीं आई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग की तो भगदड़ मच गई। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भ?की हिंसा में तीन युवकों की मौत हो गई। कमिश्नर आर्जनेय सिंह ने इसकी पुष्टि की है। हिंसा में सीओ अनुज चौधरी और एसपी के पीआरओ को भी गोली लगी है। मृतकों के परिजनों का दावा है कि पुलिस की गोली से मौत हुई है।

प्रियंका पर खूद को साबित करने की चुनौती

नरेश मल्होत्रा
नई दिल्ली, 24 नवंबर। जनयुद्ध रही, अब जनप्रतिनिधि बनने की राह पर हूँ, पहली बार अपने लिए वोट मांग रही हूँ...प्रियंका गांधी ने यह बात वायनाड सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान लोगों से आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने की अपील करते हुए कही थी। क्षेत्र की जनता ने भी उन पर भरपूर प्यार उड़ाया। प्रियंका ने इस सीट से पूर्व सांसद और अपने भाई राहुल गांधी से भी ज्यादा वोटों के अंतर (4,10,931) से जीत हासिल की है। अब चर्चाएं तेज हैं कि क्या कांग्रेस की खेवनाहार बन पाएंगी। प्रियंका के संसद में कदम रखने के बाद अब गांधी परिवार के तीन सदस्य एक साथ संसद में होंगे। कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि वह पार्टी को मुश्किल दौर से बाहर निकालने में सफल होंगी। दरअसल, प्रियंका का संसद में प्रवेश ऐसे समय हो रहा है जब पार्टी हाल में हरियाणा में हार के बाद अब महाराष्ट्र में भी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है। शकल-सूरत और बोलचाल के तरीके में समानता के कारण अक्सर उनकी तुलना दादा इंदिरा गांधी से की जाती है। यही नहीं उन्हे लोगों से जुड़ने, भीड़ के साथ बेहतरीन ढंग से संवाद स्थापित करने और कई मुद्दों पर पार्टी के दृष्टिकोण को स्पष्ट तरीके से सामने रखने में माहिर माना जाता है। सितंबर 1999 में प्रियंका

ने एक पत्रकार से कहा था कि उनके राजनीति में आने से बहुत लंबा समय लग सकता है। उन्होंने करीब 20 साल बाद 2019 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और अब पांच साल बाद वह निर्वाचित जनप्रतिनिधि के तौर पर अपनी यात्रा शुरू कर रही हैं। प्रियंका का जन्म 12 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में हुआ था। स्कूली शिक्षा देहरादून के वेल्थम गर्ल्स स्कूल से हुई, लेकिन 1984 में दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। बाद में 1993 में दिल्ली विश्वि से मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री ली। ब्रिटेन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ सॉइसडर में बौद्ध अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। सक्रिय राजनीति में आने से पहले प्रियंका केवल अपनी मां और भाई के लिए चुनाव प्रचार करती रहीं। 2004 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी की चुनाव अभियान प्रबंधक रहीं। 23 जनवरी 2019 को पार्टी महासचिव पद संभालने के साथ औपचारिक तौर पर राजनीति में आईं और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनीं। 11 सितंबर 2020 को पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव बनायीं। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने प्रियंका के नेतृत्व में ल?। हालांकि, उनके जोरदार अभियान के बावजूद प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ दो सीटें पर सफलता मिली थी। युग को जन्म देगा। भाजपा की वायनाड लोकसभा में उम्मीदवार नय्या हरिदास ने कहा कि भाजपा उस स्तर तक नहीं पहुंच सकती, जिसकी हमें उम्मीद थी। उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्ढा से था। हरिदास ने कहा कि भाजपा ने उपचुनाव के लिए विकासोन्मुखी प्रचार किया था। इसके बावजूद, चुनाव में मतदान बहुत कम हुआ। उन्होंने दावा किया कि पिछले पांच साल में क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हुआ और अगले पांच साल भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, वायनाड के लोग दशकों से मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं, लेकिन उस दिशा में भी कोई काम नहीं हुआ। जीत की घोषणा के साथ ही प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों का आभार जताया। साथ ही भरोसा दिलाया कि वह संसद में उनकी आवाज बनेंगी। उन्होंने कांग्रेस सांसदों से अपने भाई राहुल गांधी को परिवार में सबसे बहादुर बताया और हर कदम पर साथ देने के लिए आभार जताया। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि आने वाले समय में आप महसूस करें कि वास्तव में यह जीत आपकी जीत है। आपने जिस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुना है



प्रियंका की जीत से उत्साहित नजर आ रहे रॉबर्ट वाड्ढा ने कहा कि प्रियंका की अद्भुत जीत के लिए वायनाड के लोगों का धन्यवाद। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि लोग प्रियंका में उम्मीद देख रहे हैं। प्रियंका भी वायनाड के लोगों के सुनसरे भविष्य और खुशहाली के लिए हर प्रयास करेंगी। प्रियंका का संसद में प्रवेश नए

प्रियंका की जीत से उत्साहित नजर आ रहे रॉबर्ट वाड्ढा ने कहा कि प्रियंका की अद्भुत जीत के लिए वायनाड के लोगों का धन्यवाद। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि लोग प्रियंका में उम्मीद देख रहे हैं। प्रियंका भी वायनाड के लोगों के सुनसरे भविष्य और खुशहाली के लिए हर प्रयास करेंगी। प्रियंका का संसद में प्रवेश नए

कांग्रेस नेता ने शरद-उद्धव गुट पर फोड़ा हार का ठीकरा

मुंबई, 24 नवंबर। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी. परमेश्वर ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामों पर रविवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी गठबंधन सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) जैसे योजना बनाई गई थी, वैसा चुनाव अभियान चलाने में विफल रहीं। परमेश्वर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पर्यवेक्षक थे। उन्होंने कहा, लडकी बहिन योजना उनके लिए काफी प्रभावशाली रही। पिछले छह महीनों तक उन्होंने इसे प्रचारित किया, ये सब उनके हाथ में था। आखिरकार हमने टिकटों का एलान कर दिया और पार्टी में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के गुट आपस में अच्छी तरह से गठबंधन नहीं बना पाए, उन्होंने जैसी योजना बनाई थी, वैसा प्रचार नहीं किया। खासकर विदर्भ (एमवीए) ने बहुत खराब प्रदर्शन किया है। यह हर कोई जानता है। हमने और महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने कल एक साथ बैठकर विश्लेषण किया। पूर्व मुख्यमंत्री (राजस्थान) अशोक गहलोत और भूपेश बघेल (छत्तीसगढ़) और हम एक साथ बैठे। कांग्रेस नेता ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर भी सवाल उठाया और कहा, हमें जो जानकारी मिली है, वह हेरान करने वाली है कि ईवीएम को हर सीट में नहीं बल्कि चुनिंदा तरीके से हैक किया गया। मेरा मानना है कि उन्होंने ईवीएम को हैक किया है। महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के घटक दल के रूप में कांग्रेस ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था।

राज्यपाल से मिले हेमंत सोरेन, दोबारा सरकार बनाने का पेश किया दावा

कौमी संवाददाता
रांची, 24 नवंबर। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद सीएम और झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन ने नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। वह रविवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलने पहुंचे। राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। सीएम हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। इसके साथ ही नई सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपा। उनके साथ इंडिया गठबंधन के नेता भी मौजूद रहे। झारखंड के सीएम और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि 28 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमने इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमने राज्यपाल से सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। मैंने उन्हें अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। कांग्रेस और आरजेडी प्रभारी भी मेरे साथ मौजूद रहे। उन्होंने मुझे कार्यवाहक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक हुई। इसमें हेमंत सोरेन को सदन का नेता चुना गया। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपना समर्थन दिया और हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा सदन का नेता चुना गया। शपथ ग्रहण की संभावित तिथि 28 नवंबर है। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने अभूतपूर्व दो तिहाई बहुमत प्राप्त किया है। 81 सीटों वाले इस चुनाव में गठबंधन ने 56 सीटें जीतकर दो-तिहाई बहुमत हासिल किया।



कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी बसपा: मायावती
लखनऊ, 24 नवंबर। यूपी में नौ विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ने का एलान किया है। उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव आयोग फर्जी मतदान रोकने के लिए कोई सख्त निर्णय नहीं उठाता है तब तक बसपा किसी भी उपचुनाव में भाग नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि पहले बलेट से फर्जी मतदान होते थे अब यह ईवीएम से भी होने लगा है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया है कि सिर्फ उपचुनाव ही नहीं लड़ेंगे। बाकी चुनाव में भाग लेंगे। वहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती के इस बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अब यूपी में उपचुनाव होने भी नहीं हैं। हालांकि, अयोध्या की मिल्कोपुर सीट पर कोर्ट का फैसला होने के बाद उपचुनाव हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी मतदान लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। पहले लोकसभा, फिर राज्यों के विधानसभा और अब उपचुनाव में भी ये काम खल कर दिया जा रहा है।

बिहार में मिली जीत से आतंक का राज खतम

मुजफ्फरपुर, 24 नवंबर। केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मुजफ्फरपुर में बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने बिहार में एनडीए को हालिया चुनावी जीत को आतंक के युग का अंत बताया। मंत्री ने कहा कि गया के बेलागांज जैसी सीटें, जो वर्षों से आतंक के साए में थीं, अब एनडीए की जीत से मुक्त हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए ने चार सीटों पर जीत दर्ज करके यह साबित कर दिया है कि बिहार की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए में अटूट विश्वास जाया है। ललन सिंह ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) पर कटाक्ष करते हुए उन्हें 'बाजार में दुकान लगाने वाला' बताया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जैसे लोग आते हैं, बाजार में अपनी दुकान लगाते हैं, थोड़ी देर जनता को भ्रमित करते हैं और फिर दुकान समेट कर चले जाते हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पीके की संभावित भूमिका पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति टिकाऊ नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि गया के बेलागांज जैसे इलाके, जो आतंक और भय का केंद्र माने जाते थे, अब एनडीए की जीत से लोकतंत्र के प्रकाश में आ गए हैं। उन्होंने दावा किया कि एनडीए ने सिर्फ बिहार में ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बड़ी जीत हासिल की है। यह पीएम मोदी की लोकप्रियता और एनडीए के प्रति जनता के विश्वास का परिणाम है। ललन सिंह ने कहा कि बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए के लिए नया मौक़ा का पत्थर साबित होगा।

संभल हिंसा के पीछे सपा का हाथ: प्रमोद कृष्णम

सौरभ शर्मा
मुद्रादाबाद, 24 नवंबर। संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए हिंसक बवाल पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने यूपी सरकार और प्रशासन की कड़ी आलोचना की है। मायावती ने कहा कि कल यूपी के उपचुनावों के अप्रत्याशित परिणामों के बाद मुद्रादाबाद मंडल, खासकर संभल जिले में तनाव था। ऐसे हालात में यूपी सरकार और प्रशासन को मस्जिद-मंदिर विवाद के सर्वे को शांति से आगे बढ़ाना चाहिए था। मगर ऐसा नहीं किया गया और आज जो बवाल और हिंसा हुई उसके लिए यूपी सरकार और प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। यह अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि यह काम शांति से दोनों पक्षों को एक साथ लेकर किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज हिंसा और अराजकता का माहौल बना। मायावती ने संभल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि अब समय है कि स्थानीय लोग अमन और शांति बनाए रखें ताकि आगे ऐसी कोई अग्रिय घटना न घटे। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे पर रविवार को बवाल हो गया। सर्वे के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव और आगजनी की। इससे स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। संभल में हुए बवाल के बाद आल इंडिया मुस्लिम जमात में राष्ट्रिय अध्यक्ष मौलाना शाहबुददीन रज़वी बरेलवी ने मसलमानों से कहा कि अमन व शांति को बनाये रखें। तोड़फोड़, पथराव न करें। पैंगबर इस्लाम ने शांति का पैगाम दिया है उस पर अमल करें। मौलाना ने कहा कि संभल की जामा मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद है। जामा मस्जिद का मामला सर्वे को लेकर कोर्ट में लंबित है। इसे लेकर कानूनी लड़ाई



मुसलमानों से कहा कि अमन व शांति को बनाये रखें। तोड़फोड़, पथराव न करें। पैंगबर इस्लाम ने शांति का पैगाम दिया है उस पर अमल करें। मौलाना ने कहा कि संभल की जामा मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद है। जामा मस्जिद का मामला सर्वे को लेकर कोर्ट में लंबित है। इसे लेकर कानूनी लड़ाई

मजबूती से लड़ी जाएगी। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसक घटना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह गंभीर घटना है। मस्जिद का सर्वे पहले ही हो चुका था लेकिन जामबुद्दकार सुबह फिर से सर्वे टीम को भेजा गया। ताकि माहौल खराब हो सके और चुनावी मुद्दों पर चर्चा न हो पाए। सूचना है कि कई लोग घायल हो गए हैं और एक युवक की जान चली गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मस्जिद का सर्वे पहले ही किया जा चुका था तो सरकार को फिर से इसकी क्या जरूरत पड़ी। वह भी बिना किसी तैयारी। अखिलेश ने इस घटना को बीजेपी सरकार और प्रशासन की साजिश करार दिया। कहा कि जो कुछ भी हुआ वह प्रशासन की तरफ से जानबुद्दकार किया गया ताकि चुनावों में ही रो धांधली और व्यापारी मामलों पर कोई चर्चा न हो सके। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने जानबुद्दकार हिंसा को बढ़ावा दिया ताकि राजनीतिक मुद्दों पर किसी प्रकार की बात न हो सके। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है।

कभी दावा नहीं किया कि भाजपा झारखंड चुनाव जीतेगी: हिमंत बिस्वा सरमा

तेजिन्द्र कौर बख्बर
नई दिल्ली, 24 नवंबर। झारखंड में भाजपा की करारी हार के एक दिन बाद, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि उनकी पार्टी पूर्वी राज्य में विधानसभा चुनाव जीतेगी। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले झामुमो गठबंधन ने लगातार दूसरी बार झारखंड में सत्ता हासिल की, 81 सदस्यीय सदन में 56 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को केवल 24 सीटें मिलीं। हिमात्ता बिस्वा सरमा झारखंड चुनाव के लिए भाजपा के सह-प्रभारी थे। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए पूर्वी राज्य से घुसपैटियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य को निभाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। गुवाहाटी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, जब भी आप (पीडिया) ने मुझसे झारखंड के बारे में पूछा था, मैंने कहा था कि यह एक कठिन राज्य है। मैंने कभी दावा नहीं किया कि हम जीतेंगे। हमारी पार्टी के लिए वहाँ चुनाव लड़ना एक कठिन काम था, लेकिन हमने मौजूदा परिस्थितियों में अच्छा काम किया। हिमंत



लिए प्रचार करने के लिए झारखंड में डेरा डाला था और दावा किया था कि घुसपैटियों पूर्वी राज्य के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, ने सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता दोहराई। उन्होंने कहा, घुसपैट के खिलाफ कार्रवाई करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। वे कितना

देश तोड़ने की बात करने वालों को जनता ने सिखाया सबक: कंगना रनौत

शिमला, 24 नवंबर। पदकभाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुक्ति की जीत के बाद शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश को तोड़ने की बात करने वालों को जनता ने सबक सिखाया है। कांग्रेस को जनता ने जवाब दिया है। बलिदान देकर ये देश बना है। कुछ मूर्खों के इकट्ठे हो जाने से देश के टुकड़े नहीं हो सकते। हिमाचल के भुंतर हवाई अड्डे पर दिल्ली रवाना होने से पहले कंगना रनौत ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने विकास और स्थिर सरकार के लिए वोट दिया है। महायुक्ति की जीत को लेकर हर कार्यकर्ता उत्साहित है। हमारी पार्टी की यह ऐतिहासिक पार्टी की विचारधारा के तहत सीएम का चयन किया जाएगा। हमारे पास एक से बढ़कर नेतृत्व के लिए लोग हैं। मंडी से सांसद ने कहा कि प्रचार के दौरान मैंने हर बच्चे को मोदी-मोदी का नारा लगाते देखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं।



बेरुत पर इजरायली हवाई हमले में 11 लोग मारे गए

एजेंसी। लेबनान की राजधानी बेरुत में एक आवासीय इमारत को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले में कम से कम 11 लोग मारे गए और 63 अन्य घायल हो गए। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। हमले में एक आठ मंजिला इमारत को नष्ट हो गयी और पड़ोसी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। नागरिक सुरक्षा की टीमों अभी भी मलबे के नीचे पीड़ितों की तलाश में काम कर रही हैं। इजरायली मीडिया आउटलेट ने बताया कि हवाई हमला हिजबुल्लाह के एक प्रमुख अधिकारी को निशाना बनाकर किया गया था। हिजबुल्लाह ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उल्लेखनीय है कि इजरायली सेना ने गत 23 सितंबर से हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान पर अपने हवाई हमले तेज कर दिए हैं।

भारत में एक दिन में 64 करोड़ वोटों की गिनती, कैलिफोर्निया में अभी भी जारी, एलन मस्क ने भारतीय मतगणना की तारीफ की

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क ने भारतीय चुनावी व्यवस्था, खासतौर पर मतगणना प्रक्रिया की प्रशंसा की है। उन्होंने अमेरिकी चुनावी प्रक्रिया पर चर्चा की ली है, जहाँ राष्ट्रपति चुनाव के लिए अभी भी कैलिफोर्निया में मतों की गिनती चल रही है। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक यूजर की तरफ से साझा किए गए एक आलेख पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय चुनावी प्रक्रिया की तारीफ की। इस आलेख का शीर्षक था- 'भारत ने एक दिन में 64 करोड़ वोटों की गिनती की।' इसपर प्रतिक्रिया देते हुए एलन मस्क ने लिखा 'भारत में एक दिन में 64 करोड़ वोटों की गिनती हुई और कैलिफोर्निया में अभी भी वोटों की गिनती चल रही है। मस्क ने इसे दुःख बताया। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प को विजेता घोषित किया जा चुका है लेकिन कैलिफोर्निया में अभी भी तीन लाख से ज्यादा बैलेट पेपर की गिनती होनी है। कैलिफोर्निया में 3.9 करोड़ निवासी हैं और इनमें से 1.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया। इनमें भी बड़ी संख्या में लोगों ने मेल के जरिए मतदान किया। इस वजह से कैलिफोर्निया में अभी भी वोटों की गिनती जारी है। साल 2020 के चुनाव में तो कैलिफोर्निया में वोटों की गिनती में कई हफ्तों का समय लग गया था।

भारतीय सेना प्रमुख ने किये प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मंदिर के दर्शन

काठमांडू। भारतीय सेना प्रमुख जनरल अरुण सिंह ने नेपाल की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान पवित्र मुक्तिनाथ मंदिर का दौरा किया। इस अवसर पर, जनरल सिंह ने मुक्तिनाथ मंदिर में प्रार्थना की, जो हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बाद, जनरल सिंह ने नेपाली सेना के पश्चिमी डिब्रीज मुख्यालय गए। वहाँ डिब्रीज कमांडर मेजर जनरल संतोष बल्लव चौलन ने उनका स्वागत किया। भारतीय सेना प्रमुख बुधवार को पांच दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर काठमांडू पहुंचे। जनरल सिंह के नेतृत्व में पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में भारतीय सेना के सेना पत्नी कल्याण संघ की अध्यक्ष सुनीता द्विवेदी भी शामिल हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने गुरुवार को नेपाल और भारत की परंपरा के अनुसार जनरल सिंह को नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया था। भारतीय सेना प्रमुख ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी मुलाकात की। जनरल सिंह 30 जून से भारतीय सेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं।

एलन मस्क ने नेपाल के प्रधानमंत्री से स्टारलिक संचालन की अनुमति मांगी

काठमांडू। सैटेलाइट के जरिए दुनिया भर में इंटरनेट उपलब्ध कराने की योजना में रहे एलन मस्क ने नेपाल में भी इसके संचालन के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए खुद मस्क ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया है। एलन मस्क ने रात प्रधानमंत्री ओली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस विषय पर बातचीत की। इस बार में जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने एक्स पर कहा कि एलन मस्क और उनके बीच नेपाल में स्टारलिक के जरिए इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने पर बातचीत हुई। ओली ने कहा कि सैटेलाइट के जरिए पूरे विश्व में इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने वाले एलन मस्क की टीम ने नेपाल में स्टारलिक के प्रयोग का डेमो भी दिखाया। मस्क ने नेपाल के प्रधानमंत्री से नेपाल में स्टारलिक के प्रयोग की अनुमति देने का आग्रह किया है।

यूआई में लापता इस्राइली यहूदी धर्मगुरु का मिला शव; नेतन्याहू बोले- न्याय के लिए हर कदम उठाएंगे

एजेंसी। तेल अवीव। यूआई में लापता इस्राइली यहूदी धर्मगुरु का शव मिला गया है। प्रधानमंत्री बेजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इस बारे में बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात में लापता हुए एक इस्राइली-मोल्दोवा रब्बी का शव चार दिन बाद मिला गया था। बेजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के बयान में कहा गया है कि उसे यहूदी विरोधी आतंकवादी घटना में मार दिया गया था। इस्राइल उसकी मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव तरीके से कार्रवाई करेगा। हालांकि यूआई की ओर से इसे लेकर अभी कोई टिप्पणी नहीं आई है। यूआई ने नहीं दिया कोई जवाब



नहीं दिया है। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात की राज्य संचालित डब्ल्यूएम समाचार एजेंसी ने कोणन के लापता होने की बात स्वीकार की थी, लेकिन यह नहीं कहा था कि उसके पास इस्राइल की नागरिकता

बेरुत में इजरायली हवाई हमले में बीस लोग मारे गए

एजेंसी। लेबनान की राजधानी बेरुत में एक आवासीय इमारत पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 20 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। लेबनान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।

मंत्रालय ने बताया कि सुबह के समय हुए हवाई हमले में बस्ता फावका पड़ोस में आठ मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया। हमले में इमारत नष्ट हो गई और आस-पास की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। मंत्रालय ने कहा नागरिक सुरक्षा दल अभी भी पीड़ितों की तलाश में मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं। इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि हवाई हमले का उद्देश्य हिजबुल्लाह के एक प्रमुख अधिकारी

को निशाना बनाया था। मंत्रालय से संबद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार रात दक्षिणी लेबनान के



टायर जिले के ऐन बाल गांव में इजरायली हवाई हमलों में दो स्वास्थ्य कर्मी मारे गए और चार अन्य घायल हो गए। मंत्रालय के अनुसार एक

इजरायली ड्रोन ने बचाव कार्यों के लिए ऐन बाल जा रही इस्तामिक हेल्थ अथॉरिटी की एम्बुलेंस के हमला किया। जब दूसरी एम्बुलेंस



टीम सहायता के लिए पहुंची तो उसे भी एक इजरायली ड्रोन ने निशाना बनाया जिसके कारण दो स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो गई और दोनों

टीमों के चार अन्य घायल हो गए। मंत्रालय ने 'मानवीय बचाव कार्य के प्रति इस भयानक उपेक्षा' की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजरायल के 'अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन' के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने का आह्वान दोहराया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान के अनुसार सात अक्टूबर 2023 से 18 नवंबर 2024 के बीच लेबनान में कम से कम 226 स्वास्थ्य कर्मियों और रोगियों की मौत हो गई और 199 अन्य घायल हो गए। इजरायली सेना ने गत 23 सितंबर से हिजबुल्लाह के खिलाफ संघर्ष में लेबनान पर अपने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। अक्टूबर की शुरुआत में इजरायल ने लेबनान में अपनी उत्तरी सीमा के पर एक जमीनी अभियान शुरू किया।

पीटीआई को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार

एजेंसी। इस्लामाबाद। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) से कहा है कि सरकार राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकारिको के नेतृत्व में बेलाहूसी प्रतिनिधिमंडल के आगमन के कारण सुरक्षा चिंताओं के कारण 24 नवंबर को पीटीआई द्वारा निर्वाचित किसी भी रैली, विरोध प्रदर्शन या धरने को अनुमति नहीं देगी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार पीटीआई के अध्यक्ष बैरिस्टर गोहर को 80 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम प्रदान करते हुए नकवी ने पीटीआई अधिकारी से कहा कि सरकार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों से बंधी हुई है, जो किसी भी सार्वजनिक समारोह को प्रतिबंधित करता है जो



स्पष्ट नहीं है कि बाहर योजनाबद्ध विरोध प्रदर्शन होगा या नहीं, क्योंकि पीटीआई सचिव सुचना शेख वकास अकरम ने कहा है कि पीटी आई-कैज पर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए किसी भी बाधा को तोड़ देगी, और वे अपना उद्देश्य हासिल किए बिना वापस नहीं लौटेंगे।

पेरु में बस दुर्घटना में सात लोगों की मौत

एजेंसी। लीमा। उत्तरी पेरु के सेन मार्टिन क्षेत्र में शनिवार सुबह एक बस दुर्घटना में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। गृह मंत्रालय ने 'एक्स' पर बताया कि दुर्घटना मोयोवाबा प्रांत में फर्नांडो बेलॉंडे टैरी राजमार्ग पर हुई। पुलिस घटनास्थल पर खोज और बचाव अभियान चला रही है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि बस एल ट्रायको नामक एक खतरनाक मोड़ पर एक वैन से टकरा गई जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन सड़क से उतर गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सरकारी समाचार एजेंसी एडिना ने बताया कि बस दोपहर को

पिउरा क्षेत्र से 58 यात्रियों को लेकर खाना हुआ। बस में सेन जैसिंटो डे वाइस स्कूल के लगभग 23 छात्र शामिल थे। ये छात्र तारापोटो की



स्कूल यात्रा पर थे। शिक्षा मंत्री मॉर्गन क्रैरो ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया और सरकार से सहायता का वादा किया। उन्होंने कहा, 'हम इस कठिन समय में अपने शैक्षणिक समुदाय को सहायता देने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।'

इजराइली सेना ने पश्चिमी तट पर पांच यहूदियों को गिरफ्तार किया

एजेंसी। यरुशलम। इजरायली सेना और पुलिस ने पश्चिमी तट पर इटामार की यहूदी बस्ती के पास दंगा करने के आरोप में पांच यहूदियों को गिरफ्तार किया। इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने एक बयान में कहा है कि दर्जनों यहूदियों, जिनमें से कुछ नकाबपोश थे ने हिंसक दंगा भड़काया और मौके पर पहुंचे आईडीएफ और इजरायल सीमा पुलिस बलों पर पत्थर फेंके।

इजरायल के सकारी स्वामित्व वाले कान टीवी न्यूज ने बताया कि घटना के दौरान एक सैनिक को दंगाियों में से एक ने मुक्का मारा। बयान में कहा गया है कि पांच अन्य यहूदियों को गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने दक्षिणी पश्चिमी तट के हेब्रोन शहर में आईडीएफ की सेंट्रल कमांड के कमांडर एवी व्नुथ और उनके साथ आए सैनिकों पर हमला करने की कोशिश की। यहूदी चरमपंथी

निवासी कभी-कभी पश्चिमी तट पर इजरायली सुरक्षा बलों के साथ मुस्लम करते हैं ताकि वे उन कार्यों या नीतियों का विरोध कर सकें जिन्हें



वे फिलिस्तीनियों के पक्ष में देखते हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल केट्ज़ ने हमले के प्रयास की निंदा करते हुए कहा कि आईडीएफ कमांडों और सैनिकों को नुकसान पहुंचाना, जो इजरायल और उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित

हर्षिता ब्रेला हत्याकांड: 'पंकज ने देहेज के चलते की हत्या, उसके परिवार को सबकुछ पता', मृतका की बहन का दावा

एजेंसी। लंदन। पूर्वी लंदन में कुछ दिन पहले एक कार की डिग्री में भारतीय मूल की एक महिला का शव बरामद होने के बाद उसके परिवारों ने न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस 24 वर्षीय हर्षिता ब्रेला की हत्या के संदेह में उसके पति पंकज लांबा को तलाश कर रही है। वहीं, मृत महिला के परिवार ने इस मामले को देहेज से जोड़ा है। ब्रेला की बड़ी बहन सोनिया को संदेह है कि उसकी हत्या देहेज के लिए की गई थी। जबकि

शादी के दौरान परिवार ने सोना और पैसा दिया था। उनका कहना है कि शादी के दौरान परिवार ने बहुत देहेज दिया था, लेकिन पंकज तब भी खुश नहीं था। वह हमसे लगातार देहेज मांग रहा था। नॉर्थम्पटनशायर पुलिस

की जांच से पता चला है कि हर्षिता की हत्या 10 नवंबर को की गई थी। उसी रात, उन्हें अपने पति के साथ कार्बी में एक नौका विहार झील के



किनारे टहलते हुए देखा गया, जहां वह रहती थीं। ब्रेला का शव कार्बी से पूर्वी लंदन (लगभग 145 किलोमीटर दूर) कार में लाया गया था। महिला का शव 14 नवंबर की सुबह इलफोर्ड में कार की डिग्री में मिला था। कार कथित तौर पर उनके

पति की थी। इससे पहले, हर्षिता के पिता सबीर ब्रेला ने भी लांबा और उसके परिवार पर बेटी को देहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया



था। उनका कहना है, %पंकज मेरी बेटी को मारता था और पैसे लाने के लिए मजबूर करता था। आठ दिन होने वाले झगड़ों के चलते वह अलग रहने लगी और गोदाम में काम करने लगी थी। अलग रहने के बावजूद लांबा उसके बैंक खातों को संभालता था। वह इस


उम्मीद से पैसे देती रही कि किसी दिन सब सही हो जाएगा। उसे नहीं पता था कि अंत यह होगा। सोनिया ने कहा, 29 अगस्त को जब पंकज ने हर्षिता की पिटाई की तो उसने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद भी पंकज के परिवारवाले हमारे घर आए और फिर से देहेज की मांग करने लगे। मेरे पिता ने मांग को पूरा करने के लिए अपनी कुछ संपत्ति बेच दी और फरवरी तक मांग पूरी करने वाले थे। हथ में पैसे आने के बाद हम उनकी मांगों को पूरा करने वाले थे। हर्षिता ब्रेला के खिलाफ लांबा द्वारा 28 दिन का घरेलू हिंसा आदेश जारी किया गया था, जिसे उसकी हत्या के समय नवीनीकृत नहीं किया गया था। उनकी बड़ी बहन ने दावा किया कि हर्षिता हमें हर समय की जानकारी देती थी।

शहबाज सरकार के खिलाफ इमरान की पार्टी का प्रदर्शन, राजधानी में कड़े सुरक्षा प्रबंध, टकराव की आशंका

एजेंसी। इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यकर्ता रविवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और इस्लामाबाद तक मार्च करेंगे। एक साल से अदियाला जेल में बंद इमरान खान ने कहा है कि इस बार उनके समर्थक देश में लोकतंत्र की स्थापना से पहले घरों को वापस नहीं लौटेंगे। पीटीआई के प्रदर्शन से पहले सरकार की तरफ से राष्ट्रीय राजधानी इस्लामाबाद में सख्ती बढ़ा दी है।

समाचार पत्र डॉन के मुताबिक इमरान ने सरकार के खिलाफ इस विरोध मार्च को आखिरी आह्वान करते हुए अपने समर्थकों के साथ-साथ आम देशवासियों से भी सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है। उनकी पीटीआई ने 26वें सविधान संशोधन अधिनियम को रद्द करने, पीटीआई जनता को बहाल करने और बिना मुकदमे के

हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग की है। शहबाज शरीफ सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजधानी में पुलिस की सहायता



के लिए अर्धसैनिक रेंजर्स और फ्रंटियर कोर (एफसी) के कर्मियों को बुलाया है। सुरक्षा के अतिरिक्त कदम उठाते हुए प्रशासन ने शुक्रवार को शहर के सभी छात्रवासों को खाली करा दिया। पंजाब सरकार ने भी 23 नवंबर से 25 नवंबर तक पूरे प्रांत में धारा 144 लागू कर दी है, जिसके तहत विरोध प्रदर्शन, सार्वजनिक सभाएं, रैलियां और धरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी

तहत, इस्लामाबाद में भी 18 नवंबर से धारा 144 लागू है। देश के एक बड़े हिस्से में वाईफाई और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निरालंबित करने का फैसला किया गया है। अंतरिक मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए कुछ इलाकों में वाईफाई और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निरालंबित की जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि देश के बाकी हिस्से में ये सेवाएं बहाल रहेंगी। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में सेना के तख्तापलट के बाद शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने थे और इमरान को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। इस साल फरवरी में आम चुनाव हुए तो इमरान खान की पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर अरबी लीकिया की बहुमत हासिल नहीं कर पाए। ऐसे में उनकी विरोधी शहबाज शरीफ की पीएमएल-एन और बिलाल भुट्टो की पीपीपी के साथ कुछ अन्य दलों ने गठबंधन कर सरकार बना ली।

काठमांडू महानगरपालिका ने प्रधानमंत्री ओली की पार्टी पर लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना

एजेंसी। काठमांडू। काठमांडू की महानगरपालिका ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ओली की पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम वाले स्थल पर गंदगी फैलाने के मामले में लगाया गया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी शरीक हुए थे। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद ही मेयर बालेन शाह की तरफ से ओली की पार्टी नेकपा एमाले पर जुर्माना लगाए जाने के लिए लिखित तुरंत भेज दिया गया। इसे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और मेयर बालेन शाह के बीच कुछ समय से जारी शीतयुद्ध के रूप में भी देखा जा रहा है। दरअसल, काठमांडू के दरबारमार्ग में सत्तारूढ़ दल एमाले की भतीजी है, जो 2008 के मुंबई हमलों में मारे गए थे।

इस सम्मेलन की वजह से सार्वजनिक स्थल पर कान्ची गंदगी फैलाने के कारण महानगरपालिका की तरफ से जुर्माना लगाया गया है।



काठमांडू महानगरपालिका की तरफ से एमाले पार्टी के अध्यक्ष यानि केपी शर्मा ओली के नाम जारी पत्र में सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने के कारण महानगर के स्वच्छता नियम के मुताबिक एक लाख रुपये का जुर्माना आदा करने को कहा गया है। ही प्रधानमंत्री ने

जॉर्डन में इजराइली दूतावास के बाहर फायरिंग करने वाला मारा गया, बेरुत में इजराइली हमले में 20 की मौत

अम्मान। जॉर्डन की राजधानी अम्मान के रियाह इलाका स्थित इजराइली दूतावास के पास गोलीबारी करने वाले आरोपित को पुलिस ने मार गिराया है। हमलावर की गोलीबारी में तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जॉर्डन के अधिकारियों ने घटनाक्रम की जानकारी दी है।

कौमी पत्रिका

संपादक-गुरचरन सिंह बख्बर स्वामी मूद्रक एवं प्रकाशक, गुरचरन सिंह बख्बर ने कौमी पत्रिका प्रिंटिंग प्रेस, संस्कर ए-4/ए-144 इंडस्ट्रीयल एरिया ट्रोनिगा सिटी लोनी (गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश से छापकर प्रकाशित किया।

Corporate Office: 5, Bahadurshah Zafar Marg ITO, New Delhi-110002 फोन : 011-41509689, 23315814 मोबाइल नंबर : 9312262300 E - mail address : qpatrika@gmail.com Website: www.quampatrika.in R.N.I. No. UP-HIN/2007/21472 Legal Advisors: Advocate Mohd. Sajid Advocate Dr. A.P.Singh Advocate Manish Sharma Advocate Pooja Bhaskar Sharma

निज्जर हत्याकांड से पीएम मोदी को जोड़ने वाली खबरों पर बैकफूट पर टूटो, कहा- ये लीक आपराधिक-अविश्वसनीय

एजेंसी। टोरंटो। भारत और कनाडा के बीच खलिस्तानी आतंकी हरीदीप निज्जर की हत्या से पीएम मोदी विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल को जोड़ने वाली एक रिपोर्ट को लेकर टूटो सरकार अब घुटनों पर आ गई है। कनाडा द्वारा इस मामले में अपनी गलती मानने के बाद टूटो सरकार ने अपने ही अधिकारियों को अपराधी बताया है। खुद पीएम टूटो ने कहा कि

अति गोपनीय जानकारी लीक करने वाले अपराधियों तकरीबन हमेशा गलत कहानी ही सुनाई है। निज्जर हत्याकांड में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर की गई जांच में पता चला है कि इस तरह की लीक जानकारी न सिर्फ आपराधिक है बल्कि अविश्वसनीय भी है। इसके बाद टूटो के राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नथाली जी ड्रौइन ने बयान में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस.



आरोपों को सार्वजनिक किया। लेकिन कनाडा सरकार ने यह कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, मंत्री जयशंकर या एनएसए डोभाल इन अपराधों में शामिल हैं। ऐसा कोई भी आरोप गलत और बेबुनियाद है। बयान में आगे कहा गया है कि कनाडा सरकार के पास प्रधानमंत्री मोदी, मंत्री जयशंकर या एनएसए अजीत डोभाल के कनाडा के भीतर किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि में शामिल

होने के कोई भी सबूत नहीं है, न ही उसे इसकी जानकारी है। टूटो सरकार को ये स्पष्टीकरण कनाडा के एक अखबार में छपी रिपोर्ट के उस दावे के बाद आया है। जिसमें आरोप लगाया गया था कि निज्जर की हत्या की कथित साजिश भारत के शीप नेताओं ने रची थी।

कनाडा के ग्लोब एंड मेल अखबार की रिपोर्ट में कनाडाई सरकार के सूत्र के हवाले से दावा किया गया था कि खलिस्तानी

समर्थक आतंकी हरीदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ, विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस बारे में जानते थे। हालांकि भारत ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि ये कनाडा का भारत को बदनाम करने वाला अभियान है।

ठक-ठक गिरोंह का बदमाश गिरफ्तार

एजेंसी नई दिल्ली। अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने ठक-ठक गिरोंह के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपित को पहचान मदनगौर निवासी तुषि उर्फ सोमू (26) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित के पास से चार लाख रुपये बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपित ने खुलासा किया कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर थाना आदर्श नगर जयपुर राजस्थान से बेग में रूहे 10 लाख रुपये चुराए थे। इस संबंध में थाना आदर्श नगर जयपुर में केस दर्ज किया गया था। दक्षिण जिले के डीसीपी अमित चौहान के अनुसार दक्षिण जिले के क्षेत्र में हुई चोरी के एक मामले की पुलिस जांच कर रही थी। जांच के दौरान पुलिस को आरोपित के बारे में पता चला। पुलिस ने आरोपित को तलाश शुरू की। इस बीच पुलिस को पता चला कि आरोपित जयपुर में छुपा हुआ है। पुलिस ने एक टीम को जयपुर भेजा। पुलिस टीम ने गुरु सूचना के आधार पर आरोपित को ढूँढा। पुलिस ने आरोपित को निशानदेही पर चार लाख रुपये बरामद किए। जांच में पता चला कि आरोपित ठक-ठक गिरोंह का सक्रिय सदस्य है। फिलहाल पुलिस आरोपित के अन्य साथियों की तलाश कर रही है।

केजरीवाल के काम की राजनीति की जीत : आतिशी

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर कहा कि पंजाब उपचुनावों में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई है। जीत अखंड केजरीवाल के काम की राजनीति की जीत है। रंगला पंजाब का सपना देखने वाले हर पंजाबी की जीत है। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोष सिंसोरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि पंजाब विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत, 4 में से 3 सीटों पर कब्जा। यह भगवत मान जी की मेहनत और अखंड केजरीवाल की ईमानदारी राजनीति और नेतृत्व का नतीजा है। पंजाब की जनता ने साफ संदेश दिया है कि अब सिर्फ काम की राजनीति चलेगी, झूठ और भ्रष्टाचार नहीं। राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने ट्वीट कर कहा, विधानसभा उपचुनाव में 3 सीटें जीतने पर आप पंजाब के सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को हार्दिक बधाई। अखंड केजरीवाल और भगवत मान के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी कल्याणकारी नीतियों और ईमानदार राजनीति में लोगों का विश्वास मजबूत हो रहा है। आमों और बड़ी जीत की ओर बढ़ते रहें।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में हुनर और सफलता की कहानियां लोगों को कर रही आकर्षित

नई दिल्ली। दिल्ली के प्रतिष्ठित मेले में आयोजित 43 वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में देशी विदेशी उत्पाद और हुनर ही नहीं बल्कि संघर्ष व सफलता की कहानियां भी दर्शकों को बहुत आकर्षित कर रही हैं। यहां पर एक दो नहीं बल्कि अनेक कारीगर-कलाकार आए हुए हैं। इस बार व्यापार मेला आम जनता के लिए 19 नवंबर से खोला गया था। इसे पहले 14 - 19 नवंबर तक व्यापारियों के लिए था। साप्ताहिक आखिरी दिन यानी 23 नवंबर को बहुत बड़ी संख्या में लोगों को भीड़ देखने को मिली। हॉल में एक स्थित झारखंड मंडप में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को आकर्षित कर रही हैं। हॉल नंबर दो स्थित बिहार मंडप में सभी कारीगर अपनी अनूठी हस्तकला और परंपरा को जीवंत कर रहे हैं। इन कारीगरों के हैंडवूम, टसर सिक्के, जरी, हैंडब्लॉक प्रिंटिंग और मधुबनी पेंटिंग के साथ टिकुली पेंटिंग जैसे हस्तनिर्मित उत्पाद मेले में लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। हॉल नंबर दो में ही उत्तर प्रदेश मंडप भी है जिसमें हाथरस की हिंग, बनारस की साड़ी के साथ आर्गेनिक फार्मिंग है जो लोगों के स्वास्थ्य में उपयोग करने वाली चीजें उपलब्ध कराता है। हॉल नंबर तीन में न केवल वास्तविक ड्युनासोर के अंडे बल्कि उनके पैर और पूंछ की हड्डियां व अन्य अवशेष भी देख पा रहे हैं। ये अंडे शाकाहारी और मांसाहारी ड्युनासोर दोनों के ही हैं। जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर और गुजरात के खेड़ा जिले में खोजे गए हैं। हॉल नंबर छह विदेशी कलाओं और उनकी चीजों में लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। वहीं अगर लोगों की दिक्कत और परेशानी का सबसे बड़ा कारण है सही सुविधाओं का मेले में न होना जैसे उनको मेट्रो से मेले तक आने में परेशानी हो रही है।

प्राकृतिक चिकित्सा केवल चिकित्सा पद्धति ही नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ जीवन जीने की कला भी है: विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज आयुष मंत्रालय द्वारा 7वें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस समारोह के अंतर्गत आज राहिंगी सेक्टर-19 स्थित प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल में आयोजित प्राकृतिक चिकित्सा मेला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित दर्शकों को संबोधित करते हुए गुप्ता ने प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व को रेखांकित करते हुए, स्वस्थ जीवनशैली एवं शाकाहारी खान-पान अपनाने के लिए लोगों से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली चिकित्सा की एक रचनात्मक विधि है, जिसका लक्ष्य प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के उचित इस्तेमाल द्वारा रोग का मूल कारण समाप्त करना है। यह न केवल एक चिकित्सा पद्धति है बल्कि मानव शरीर में उपस्थित आंतरिक महत्वपूर्ण शक्तियां या प्राकृतिक तत्वों के अनुरूप एक जीवन-शैली है। यह जीवन कला तथा विज्ञान में एक सम्पूर्ण क्रांति है। इस प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में प्राकृतिक भोजन, विशेषकर ताजे फल तथा कच्ची व हल्की पकी सब्जियां विभिन्न बीमारियों के इलाज में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा निर्धन व्यक्तियों एवं गरीब देशों के लिये विशेष रूप से वरदान है।

प्रधानमंत्री मोदी का विजन भाजपा को शिखर पर ले जाएगा: चूध

नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चूध ने महाराष्ट्र में भाजपा की ऐतिहासिक जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास संबंधी विजन और नीतियों का परिणाम बताया और कहा कि हरियाणा में पार्टी की हालिया जीत के बाद महाराष्ट्र की बड़ी जीत यह 2047 के विकसित भारत विजन के प्रति लोगों के समर्थन की पुष्टि करता है। चूध ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा को लगभग 130 सीटों पर बढ़त है तथा भाजपा नेतृत्व के महत्वाकांक्षी विजन के माध्यम से 233 सीटें मिलाना एक अभूतपूर्व जीत है। चूध ने एक बयान में कहा कि भाजपा ने उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली जीत दर्ज की और साथ ही भाजपा का वोट शेयर उन सीटों पर भी बढ़ा, जहां वह बहुमत से पीछे रह गई थी। बिहार और अरुण की उपचुनाव की लगभग सभी सीटों भाजपा नेतृत्व के एनडीए गठबंधन ने जीती हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के परिणाम के बाद भाजपा नेतृत्व के महत्वाकांक्षी विजन का साफ संकेत है कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की विकास की नीतियों को स्वीकार किया है। जनता ने गरीब कल्याण, युवा, महिला और किसान कल्याण को नीतियों को आशीर्वाद दिया है। 14 राज्यों के उपचुनाव में भी भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को लगभग 29 सीटें मिली हैं। सभी राज्यों में वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी भी हुई है। चूध ने कहा कि लोगों ने समाज में विभाजन पैदा करने के अभाव में देश में निर्णायक भूमिका निभाती है। प्राकृतिक चिकित्सा निर्धन व्यक्तियों एवं गरीब देशों के लिये विशेष रूप से वरदान है।

सहकारिता क्षेत्र के जरिए करोड़ों किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए केंद्र कटिबद्ध: अमित शाह

एजेंसी नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से करोड़ों किसानों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार सहकारिता आंदोलन के माध्यम से देश के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार सहकारिता के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है और इस दिशा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की अहम भूमिका है। वह आज यहां राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की 91वां आम परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने सहकारी आंदोलन में एनसीडीसी के योगदान की सराहना की और लाखों सहकारी समितियों के जीवन को बदलने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि

है।श्वेतक्रान्ति 2.0 के महत्व पर जोर देते हुए अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में दुग्ध सहकारी संघों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया



एनसीडीसी की सफलता न केवल इसके 60 हजार करोड़ रुपये के संवितरण से परिलक्षित होती है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारी क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालने की इसकी क्षमता से भी परिलक्षित होती

बुसेल्स में भारतीय दूतावास ने भारतीय समुद्री भोजन और वाइन टेस्टिंग कार्यक्रम के दूसरे संस्करण की मेजबानी की

एजेंसी नई दिल्ली। बुसेल्स में भारतीय दूतावास ने भारतीय समुद्री भोजन और वाइन टेस्टिंग कार्यक्रम के दूसरे संस्करण की मेजबानी की। कार्यक्रम में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए), नई दिल्ली और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एएमपीडीए), कोच्चि के सहयोग से भारत की बेहतरीन पक कला का प्रदर्शन किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि 20 नवंबर को ब्रसेल्स में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भारत के प्रीमियम समुद्री भोजन और इसमें जीवंत और बढ़ते वाइन उद्योग के बेहतरीन संयोजन का जश्न मनाते हुए 120 से अधिक प्रतिष्ठित



सोपन कुमार ने इस मौके पर सांस्कृतिक तथा व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने में इस कार्यक्रम के महत्व के बारे में जानकारी दी। मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के सचिव सुनील बर्थावाल ने भारत के गतिशील व्यापार पर्यटन और

उन्होंने उपस्थित लोगों को भारत के अनूठे स्वादों का स्वाद लेने के लिए आमंत्रित किया, जो देश के संपन्न खाद्य और पेय उद्योग के समर्पण, नवाचार और विरासत को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि विलवंत 2023-2024 में भारत का कुल निर्यात 433.09 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें कृषि वस्तुओं का योगदान 33.24 अरब डॉलर (कुल निर्यात का

चरणजीव मल्होत्रा ने पीएम मोदी से की अपील देश में सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाने की पुरजोर मांग की !

नई दिल्ली। प्रमुख समाजसेवी व गौ माता रक्षा एवं करोना योद्धा चरणजीव मल्होत्रा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के उपचुनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नारा था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जबरदस्त चर्चा में था। न सिर्फ हिंदी बेल्ट में बल्कि अन्य भाषा में भी इस नारे को लेकर काफी सियासी शोर सुनाई दिया था। आगरा में सीएम योगी ने एक ऐसा बयान दिया था जो कि चर्चा में है। सीएम योगी ने आगरा के एक कार्यक्रम में लोगों को राह की एकता का संदेश देते हुए कहा था कि बंटेंगे तो कटेगें, एक रहेंगे तो नक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मल्होत्रा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के लिए शुक्रवार को विधानसभा चुनाव में भाजपा-महयुति गठबंधन की ऐतिहासिक जीत के लिए महाराष्ट्र के लोगों को हार्दिक बधाई। महाराष्ट्र की समाप्त प्रगति एवं आकाशियों के लिए प्रतिबद्ध है। ' और कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता दी।चरणजीव मल्होत्रा ने आगे कहा कि महाराष्ट्र की इस ऐतिहासिक विजय के लिए भाजपा के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देते हुए जनता-

करने और उसे एक कानूनी संगठन का रूप देने के लिए एफ में संवैधानिक राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड की स्थापना भी प्रस्तावित है। भारत का प्रत्येक हिंदू इस बोर्ड का सदस्य होगा। उसे राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड के प्रमुख मुद्दों में से एक कानूनी संगठन को चुनने के लिए मुताधिकार होगा। हलांकि हर हिंदू को इसका सदस्य बनने की अनिवार्यता नहीं होगी, जन्म के जैन, सिख और बौद्ध धर्मावलंबी भी चाहे तो इसके सदस्य बन सकते हैं। प्रस्तावित बोर्ड के पास हिंदू मंदिरों के प्रबंधन के कानूनी अधिकार होंगे। वर्तमान में ब? मंदिरों के प्रबंधन और स्वामित्व से जु? विवाद भी पह वीर्ड ही सुनझाएगा। इस कानून के तहत राठेय सनातन रजिस्टर की



मंदिरों का प्रबंधन हिंदू समाज हाथों में सौंपने की बात तो पहले से की जा रही थी। चार वर्ष पूर्व उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने बदनीय समेत 15 मंदिरों का प्रबंधन देवस्थानम बोर्ड से लेकर पा? परलहितों के हाथों में सौंप दिया था। हाल में यह मुद्दा सबसे पहले आंध्र प्रदेश के तिरुपति प्राने में मिलावट की बात सामने आने पर उठया था। केसे सनातन बोर्ड के अलावा भारत के हिंदूओं को धार्मिक आधार पर संगठित


'शहीदी दिवस' की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने कहा, गुरु तेग बहादुर जी ने दिया प्रेम और एकता का संदेश



एजेंसी नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस की पूर्व संध्या पर दिए अपने संदेश में उनके प्रेम और एकता के संदेश को याद किया और लोगों से उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की अपील की। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु तेग बहादुर के 'शहीदी दिवस' की पूर्व संध्या को अपने संदेश में कहा, गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस का अक्सर पर मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वे एक महान आध्यात्मिक मार्गदर्शक और सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने समाज में प्रेम और एकता को बढ़ावा दिया। उन्होंने लोगों को सत्य और न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आइए हम गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं को और उनके महान आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं।

पर्यावरण मंत्री ने देर रात सिंधु बॉर्डर पर जाकर ग्रेप 4 के कार्यान्वयन का निरीक्षण किया

एजेंसी नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रात नरेला और सिंधु बॉर्डर पर जाकर ग्रेप 4 के कार्यान्वयन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई जगह से ग्रेप 4 के नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिल रही थी। इसलिए आज हम यहां देखने आए हैं कि रात में क्या स्थिति है। प्रदूषण के नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार अपने स्तर पर सारे प्रयास कर रही है। निरीक्षण के दौरान गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। अभी दिल्ली के अंदर ग्रेप 4 लागू है। दिल्ली में बीएस 3 और बीएस 4 की गाड़ियों



श्री। इसलिए आज हम यहां देखने आए हैं कि रात में क्या स्थिति है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए इन गाड़ियों की एंटी बैन है, इसलिए इस तरह की गाड़ियां न भेजें। ईस्टर्नल पैरिफेरल एक्सप्रेसवे से गाड़ियों को डालवट कर लें, ताकि दिल्ली में चाहता हू कि चाहे वो ड्राइवर हो या ट्रक मालिक हों, दिल्ली के अंदर

झारखंड में संविधान की जीत और महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित : राहुल गांधी

एजेंसी नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली जीत को जल-जंगल और जमीन की रक्षा की जीत बताया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के नतीजों को अप्रत्याशित बताते हुए इनका विश्लेषण किए जाने की बात कही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मतगणना के बाद एक एक्स पोस्ट में कहा कि झारखंड के लोगों का आइएनडीएआई को विशाल जनादेश देने के लिए दिल से धन्यवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस और झामुओ के सभी कार्यकर्ताओं को इस विजय के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रदेश में गठबंधन की यह जीत संविधान के साथ जल-जंगल-जमीन की रक्षा की जीत है। राहुल ने आगे कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित हैं और इनका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे।



एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई है जबकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में कांग्रेस और अन्य पार्टियों के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है।

NAME CHANGE
I, hiherto known as CHANDER PRAKASH alias CHANDER KUMAR S/O TARA CHAND R/O House No. A-9, First Floor, Anoop Nagar, Bindapur Road, Uttam Nagar, West Delhi, Delhi-110059 have changed my name and shall hereafter be known as CHANDER KUMAR for all future purposes.

NAME CHANGE
I, Bimlendu Chaudhary S/O Daya Shankar Chaudhary R/O-261, Sector-9, DDA, Pocket-1, Dwarka South, West Delhi - 110077 have changed my name to Bimlendu Choudhary for all future purposes.

NAME CHANGE
I hiherto known as Pooja Jaswal alias Pooja Jain alias Payal Saini D/O Pradep Kumar W/O Ankit Jain R/O 2201, Gali No.-10 Kaliash Nagar, Gandhi Nagar East Delhi, Delhi-110031, have changed my name and shall hereafter be known as Pooja Jain.

NAME CHANGE
I, No-15321300A Rank-HAV Name-ELUNJALAI S/O Father of E SHANMUGAM residing at Z7, PAVUNU STREET, AMMAN NAGAR, VPO-DAMARAIPAKKAM, TK-ARCOOT, DIST-VELLORE, TAMIL NADU-632504 have changed my minor son's name from E SHANMUGAM to SHANMUGAM E for all future purposes vide Affidavit dated 23/11/2024 before Notary Public, Delhi.

(BEDAKHAL)
That we MOHD USMAN and SHAMA PARVEEN declare as under that we disowned my Daughter MARYAM USMAN from all as moveable/immovable/Patrick properties/assets for her wrong behavior. We shall not be held responsible for any kind of acts done by her in money or transaction or any illegal/legal and property purpose in the future. That she departed from entering as premises situated at H NO-886, HAWALI AZAM KHAN, MATIA MAHAL, DELHI-110006.

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given by Mr. Hunny Gupta that The Original Sale Deed dated 27.01.2018 executed by Mr. Nihal Singh in favour of Mrs.Sudha in respect of the Agricultural Land admeasuring 0.767 Hect.out of khata no.vv 00044, Land no. 160/0.5300 Hect. As doc. no. 686, book no. 1, vol. no. 3427, Page no.169 to 240, on 27.01.2018, SRO - Jewar - Gautam Budh Nagar for Land admeasuring 2.5 Bigha, out of Land no. 160/0.5300Hect, Khata no. 68, situated at Village Sirola, Bangar, Pargana & Teshil Jewar, Distt. Gautam Budh Nagar, has been lost/Misplaced. That her whosoever will be taking financial assistance from Chola Finance Ltd., Public is being warned not to deal with the said document. Any person dealing with the said document would do so at their own risk & responsibility. Owner shall not be liable in any manner whatsoever for any loss incurred by such person. If anybody found these document or notice any misuse of the above mentioned document, Concern person is required to communicate in writing to the undersigned at below address.

NAME CHANGE
I, hiherto known Devnathi Somkunwar S/O Ganpatrao employed as Second S.I. - Command in the Central Reserve Police Force under Ministry of Home Affairs R/O Flat No. E/1206, Tower-D, 12th floor Oxy Homez , Loni Road Ghazipur , Loni , P.O Loni , Dist: Bhopal, Uttar Pradesh -201102, has changed my name and shall hereafter be known as Deven Bhosle

NAME CHANGE
I, GURMAIL KAUR Mother of No. 93002319K Rank-NK, Name-JASWINDER SINGH presently residing at VILL-MANNA BIBRIAN, PO-MOOSA-DIST-MANSA, PUNJAB-151008 has changed my name from GURMAIL KAUR to GURMIL KAUR for all future purposes vide Affidavit dated 23/11/2024 before Notary Public, Delhi.

NAME CHANGE
I, Khatlan & Khatlan A-38 Kailash Colony, New Delhi-110048 Contact #011-49774545

NAME CHANGE
I, Manju Sheoran w/o Alok kumar r/o vill palsera aligarh up have change my name after marriage Manju devi for all purpose

NAME CHANGE
It is for general information that I REKHA MANDAL D/O LATE UDAY MANDAL Permanent Residence MAHADEW PURI VTC MOBARAKPUR, PO MAHADEWPUR, MALDA, STATE WEST BENGAL-732121, Present Address RZ-124/213, I-Block, Gali No.-8A, West Sagarpur, New Delhi-110046, declare that name of mine and my father has been wrongly written as JANJUNA MANDAL and NITAI MANDAL in my aadhar card No. 3181 9187 5960. The name of mine and my father are REKHA MANDAL and UDAY MANDAL respectively which may be amended accordingly.

NAME CHANGE
I, Ravi Sharma S/o Ganga Sharan Sharma R/O Shanti pura Gandhi Road, Baraut, Baghapat-250611, Uttar Pradesh have changed my name to Ravi Shankar Sharma for all future purposes

PUBLIC NOTICE
Be it known to general public that myself Noor Alam S/O Late Abdul Moeed resident of C-3/6, Ground Floor, Umesh Park Modinagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201204, has disowned and disinherited my brother namely Attab Ali and his wife Yasmeen and their family from all my moveable and immovable properties and severe my relations from them because they have become disobedient and they are not under the control of myself and other family members as well as relatives will not be responsible for any type of financial irregularities, criminal act, liabilities & any acts, deeds done by them in future.
NOOR ALAM ADVOCATE
Off: Library - 1, SCBA, Supreme Court of India, New Delhi-110001

सर्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुकदमा मीग देवी पत्नी रवि कुमार, निवासी झुंगी नो 367, बरौली, गोरखपुर डी, छत्ता, साउथ वेस्ट दिल्ली-110071, ने अपने बेटे नाम राहुल पुरी मोन देवी रवि देवी को मालिकता की उनके निवृत्ति में न होने, व उनके साथ अर्ध स्वकार करने और लड़ने-झगड़ कर के करण कर रही है। परिवार में कोई व्यक्ति मेरी मुकदमा का लेन-देन व व्यवहार रखता है तो उनका विवरण जरूर बताना होगा, मेरी मुकदमा व उनके परिवार की कोई विवरण नहीं होगा।
SANTOSH KUMAR ADVOCATE.
CH. NO. 442 LAWYERS CHAMBERS BLOCK DWARKA COURT COMPLEX SECTOR-10 NEW DELHI-110075.

PUBLIC NOTICE
It is for general information that I Vipin Kumar S/O Hanu Ram R/O A-199 ALLAH MOHALLA, TEKHAND VILLAGE, Okhla Industrial Estate S.O. DIST: South Delhi, Delhi-110020, declare that name of mine has been wrongly written Vipin Prasad in my minor daughter namely Anushka kumari aged 15 years in her 10th class educational document and birth certificate No 323/09. The actual name of mine is Vipin Kumar, which may be amended accordingly.

शिक्षा से व्यक्तित्व का विकास होता है: श्याम सिंह राणा

एजेंसी

यमुनानगर। कृषि एवं किसान कल्याण व मत्स्य पालन एवं डेरी विभाग मंत्री श्याम सिंह राणा ने राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ मध्यम विद्यालय बुडिया के प्रांगण में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करने के उपरान्त पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्या श्रीमती पूनम छबड़ा ने की। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा गरीब बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का सपना साकार करने के लिए 'चिपिंग योजना' चलाई गई है। बहन-बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया है। प्रदेश में सैकड़ों नए कॉलेज खोले गए हैं। इनमें आधे से अधिक लड़कियों को है। उन्होंने कहा कि शिक्षा आपको एक बेहतर इंसान बनाती है और आपको कई तरह के कोशल सिखाती है। यह आपको बुद्धि और तर्कसंगत निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा देश की आर्थिक वृद्धि में भी सुधार करती है और देश के नागरिकों के लिए एक बेहतर समाज के निर्माण में सहायता करती है। इससे अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करने और दुनिया में प्रकाश लाने में मदद करती है। उन्होंने खेल-कूद गतिविधियों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए दो लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की। इस अवसर पर उद्घारोपण भी किया गया एवं विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा समां बांध दिया। इस मौके पर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा भी शामिल रहें।

नारनौल: पर्यटन को बढ़ावा देना सरकार का लक्ष्य: विवेक भारती

नारनौल। उपायुक्त विवेक भारती ने जिला के ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया। उपायुक्त ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देना सरकार का लक्ष्य है। इस जिले में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उपायुक्त ने सबसे पहले नारनौल शहर के बीच स्थित इब्राहिम खान का मकबरा तथा पीर तुर्कमान की दरगाह का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने जल महल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐतिहासिक स्थलों का अच्छी तरह से संरक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला में पर्यटन को बढ़ावा देना सरकार का लक्ष्य है। इस जिले में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसके बाद उन्होंने मिर्जा अलीजान की बावड़ी तथा छत्ता राय बालमुकुंद दास का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ नगराधीश मजीत कुमार तथा बीएंडआर विभाग के एक्सईएन अश्विनी कुमार भी मौजूद रहे।

चलती स्कॉर्पियो में लगी आग, बाल-बाल बचा शादी में जा रहा परिवार

यमुनानगर। जगाधरी-पांवटा साहिब मार्ग पर एक चलती स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक से आग लगने पर कुछ ही क्षणों में धू धू जलकर खाक हो गई। गनीमत यह रही कि चालक की सूझबूझ के चलते गाड़ी में बच्चों सहित बैठी महिला बाल-बाल बच गई। परिवार शादी समारोह में जा रहा था। मौके पर अग्निशमन की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। तकनीकी खराबी के चलते आग लगने का कारण बताया जा रहा है। छहरोली पुलिस थाने के जांच अधिकारी प्रकाश ने बताया कि आग दोपहर छहरोली की तरफ से एक परिवार स्कॉर्पियो गाड़ी में शादी समारोह में जा रहा था। गाड़ी में चार बच्चे और एक महिला सवार थी। गाड़ी जब ताज पैलेस के नजदीक पहुंची तो उसमें तकनीकी खराबी के चलते चिंगारी निकली। स्कॉर्पियो चालक ने तत्परता से साहस दिखाकर सड़क के एक ओर गाड़ी को खड़ा कर बच्चों और महिला सहित गाड़ी में रखा सामान बाहर निकाल लिया। इतनी देर में ही गाड़ी धू धू कर जलकर खाक हो गई। गाड़ी की टंकी और टायर भी फट गए। अग्निशमन की गाड़ी को तुरंत मौके पर बुलाया गया और आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत यह रही कि समय रहते गाड़ी में से सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया।

जनसमस्याओं का समाधान और क्षेत्र का विकास प्राथमिकता: कृष्णा गहलावत

सोनीपत। राई की विधायक कृष्णा गहलावत ने अपने कैप कार्यालय में राई वासियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राई हलके को विकास में अग्रणी बनाना और मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना उनकी प्राथमिकता है। विधायकने सरपंचों और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि समयबद्ध तरीके से उनका समाधान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि राई में किसी भी समस्या को लांबित नहीं रहने दिया जाएगा और हर समस्या का स्थायी समाधान होगा। इस दौरान अटवन्दा, जांटी, और रवटकड़ के सरपंचों सहित कई ग्रामीणों ने विधायक का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में कॉलेज स्थापना और अन्य मांगों को उठाकर उन्होंने क्षेत्र की आवश्यकताओं को मजबूती से प्रस्तुत किया है। विधायक ने जनता के समर्थन और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि वे अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएंगी। राई हलके का विकास और जनता का कल्याण उनका मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर हो रहा काम: राव नरबीर सिंह

एजेंसी
गुरुग्राम। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य तथा पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा में सकारात्मक सोच के साथ औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए समन्वित प्रयास जा रहे। प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल नीतियों और वातावरण के साथ प्रशासनिक स्तर पर भी सहयोगात्मक भाव रहेगा। कैबिनेट मंत्री ने यह बात गुडवाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल के दौरान कहा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चैम्बर के फाउंडर प्रेसिडेंट पी. के जैन ने किया। इस भेंट में उद्योगों के हित में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान उद्योगों की समस्याओं, नियमों के सरलीकरण, रोजगार के कार्यों में आने वाली समस्याएं आदि पर भी विस्तार से चर्चा की गई। राव नरबीर सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की साख में



अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। विकास में समग्रता को अपनाया गया है। भारत विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है कि भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके।

भारतीय संविधान पूरी दुनिया का मार्गदर्शक: ओम बिरला

एजेंसी

सोनीपत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय संविधान को दुनिया का मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि यह हमारी राष्ट्रीय गौरवशाली विरासत है। ओपी जिनंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में संविधान संग्रहालय के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान कानूनी दस्तावेज होने के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है।

उन्होंने कहा कि संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से 2015 में आरंभ हुआ। यह दिवस सभी शिक्षण संस्थानों में विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर है। श्री बिरला ने संविधान संग्रहालय को नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया और

कहा कि यह देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में सहायक होगा। श्री बिरला ने राष्ट्रपिता महात्मा



गांधी के विचारों को याद करते हुए कहा कि पूरी दुनिया गांधी जी के आदर्शों को अपना रही है। उन्होंने कहा कि संविधान ने समानता की नींव रखी, और यह वसुधैव

कुटुंबकम की भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाता है। उन्होंने इस संग्रहालय के निर्माण के लिए

का प्रतीक बताया। उन्होंने भारत को मंदर ऑफ डेमोक्रेसी बताते हुए कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने समानता और स्वतंत्रता के विचारों को प्राथमिकता दी। उन्होंने संग्रहालय निर्माण के लिए विश्वविद्यालय की सराहना की। सांसद नवीन जिनंद ने कहा कि भारतीय संविधान ने देश को लोकतांत्रिक मूल्य प्रदान किए हैं। संग्रहालय संविधान निर्माण, उसके विकास और देश के विकास में इसकी भूमिका को प्रदर्शित करेगा। विश्वविद्यालय परिसर में चार दिवसीय सेमिनार का आयोजन भी किया गया है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष जसवीर देवता, उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार, डीसीपी ईस्ट परवीना पी. और विश्वविद्यालय के कुलपति सी. राजकुमार सहित कई अन्य भी उपस्थित रहे।

पुलिस कर्मियों के बच्चे अब विदेशी भाषाएं भी सीख सकेंगे

एजेंसी

गुरुग्राम। पुलिस लाइन गुरुग्राम, मानेसर व थौंडसी में लगभग 1.5 करोड़ की रूप में तैयार की गई ई-लाइब्रेरियों का पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने उद्घाटन किया। गुरुग्राम पुलिस लाइन स्थित लाइब्रेरी को मॉडल लाइब्रेरी के रूप में तैयार कर किया जाएगा। पुलिस कर्मचारियों तथा उनके बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए पुलिस लाइन गुरुग्राम, मानेसर व थौंडसी में ई-लाइब्रेरियां स्थापित की गई हैं। पुलिस आयुक्त गुरुग्राम विकास कुमार अरोड़ा की देखरेख में इन पुस्तकालय को स्थापित किया गया है।

गुरुग्राम जिले की पुलिस लाइनों में स्थापित की गई इन लाइब्रेरियों में विदेशी भाषा सीखने के लिए विदेशी भाषा लर्निंग केंद्र भी स्थापित किया गया है। इस लाइब्रेरियों में अत्याधुनिक फर्नीचर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कंप्यूटर, किंडल और स्मार्ट बोर्ड के साथ सुनिश्चित में ई-बुकस की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। स्पेनिश, फ्रेंच, जापानी

एवं अंग्रेजी भाषा सीखने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए लर्निंग केंद्र में ऑनलाइन प्रशिक्षक उपलब्ध कराया गया है। पुस्तकालय को बिजली की



असुविधा न हो, इसके लिए सौर ऊर्जा से जोड़ा गया है। अधुनिक एवं आदर्श पुस्तकालय के स्वरूप को साकार करते हुए कंप्यूटर सिस्टम के साथ एल.ई.डी. स्क्रीन एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। प्रत्येक लाइब्रेरी में एक समय में 100 से अधिक पाठक बैठ सकते हैं। हरियाणा पुलिस द्वारा अब तक विभिन्न जिलों में 18 पुलिस लाइनों में पुस्तकालय का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष 7 पुलिस परिसरों में पुस्तकालय का निर्माण किया जा रहा

है। इस दौरान पुलिस महानिदेशक हरियाणा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हरियाणा में प्रत्येक पुलिस लाइन में पुस्तकालय बनाए जा रहे

हैं। अब तक 18 पुलिस लाइंस में पुस्तकालय स्थापित किया जा चुके हैं। इन पुस्तकालयों से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले तथा स्कूल, कॉलेज में पढ़ने वाले पुलिस कर्मचारियों व पुलिस परिवार के बच्चों को लाभ प्राप्त होगा। इन पुस्तकालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पुस्तकें, विभिन्न नोबल भी उपलब्ध कराए गए हैं। इन पुस्तकालयों में विदेशी भाषा को सीखने के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

एकलव्य स्टेडियम में महर्षि वाल्मीकि जयंती एवं सीएम सम्मान समारोह की तैयारियां पूरी

एजेंसी

जौड़। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारी मंत्री कृष्णा बेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं वह करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज को कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं थी तो उन्होंने मुख्यमंत्री के आश्वासन पर भाजपा का साथ दिया और सरकार बनने के तुरंत बाद कैबिनेट की पहली बैठक में पहले कलम से मुख्यमंत्री ने आश्चर्य में वर्गीकरण को लागू करने का काम किया और उसका नोटिफिकेशन भी जारी करवाया। आज यह प्रदेश में पूरी तरह से लागू हो चुका है। डीएससी समाज पिछले 18 सालों से अपनी मांग को लेकर आंदोलनरत था। इस दौरान कांग्रेस ने डीएससी समाज को केवल

लाटियां और जेल देने का काम किया लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का



फैसला आया हरियाणा के मुख्यमंत्री नयब सिंह सैनी ने आश्चर्य में वर्गीकरण का फैसला करके डीएससी समाज को ऐसी सौगात दी है जिसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नयब सिंह

सैनी जौड़ में महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह में डीएससी समाज को बड़ी

सौगात देने का काम करेगे। मंत्री बेदी यहां एकलव्य स्टेडियम में रविवार को होने वाली महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह एवं मुख्यमंत्री सम्मान समारोह की अंतिम तैयारियां का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर

महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत, कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ता देश: अरविंद शर्मा

एजेंसी

सोनीपत। सहकारिता, पर्यटन एवं कारागार मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा की प्रचंडजीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर जनता की मुहर है। यह न केवल भाजपा कार्यकर्ताओं बल्कि महाराष्ट्र की जनता की भी जीत है। उन्होंने विपक्ष पर सवाल उठाती रही हैं, लेकिन झारखंड के परिणामों पर उनकी चुप्पी बताती है कि अब डीवीएम उनके लिए ठीक हो गई है। डॉ. शर्मा ने जारी बयान में कहा कि देश अब कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां देश को विकसित भारत बनाती की ओर ले जा रही हैं, और जनता ने कांग्रेस के झूठ को पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने

महाराष्ट्र की जीत के लिए प्रधानमंत्रीमोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री को बधाई दी। डॉ. शर्मा ने महाराष्ट्र की जनता की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने और नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष हर का ठीकरा इंबीएम पर फोड़ने की अपनी आदत से बाज नहीं आता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और अन्य नेताओं ने महाराष्ट्र की जीत का बधाई दी। बरोदाहलके में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में लड्डू बांटे। पूर्व प्रत्यक्षी प्रदीप सांगवान ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि उनकी नीतियों ने भारत को वैश्विक स्तर पर गौरवान्वित किया है।

विधानसभा डिप्टी स्पीकर की चेतावनी, अपराधी अपराध छोड़ें या जीट

एजेंसी

जौड़। शहर की सुरक्षा व्यवस्था और जीट आ रहे मुख्यमंत्री नयब सिंह सैनी की रैली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जीट से भाजपा विधायक एवं डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिश्रा ने एसपी राजेश कुमार से बैठक करके दिशा-निर्देश दिए। बैठक में सभी डीएसपी, थाना प्रभारी, चौकी ईंचार्ज व अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिश्रा ने कहा कि जीट का समय शुरू हो चुका है। ऐसे में पुलिस गत को बढ़ाया जाए। शहर की महिला कॉलेज, स्कूलों के आसपास राइडर्स को तैनात किया जाए। इसके अलावा मुख्य बाजार में भी पुलिस राइडर्स की गत को बढ़ाया जाए। वहीं पार्कों में भी सुबह युवतियां व महिलाएं घूमने के लिए जाती हैं तो इसके लिए भी पुलिस गत कराई जाए। शहर के पटयाला चौक, बसच चौक, शिव चौक, एसडी स्कूल, परशुराम चौक, कुन्दन सिनेमा व देवीलाल चौक पर जीट की स्थिति बन जाती है। ऐसे में यहां

पुलिसकर्मियों की तैनात की जाए। डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिश्रा ने अपराधियों व शरारती तत्वों को चेताया कि या तो वो अपराध को



छोड़ दें या फिर जीट की भूमि को छोड़ दें। क्योंकि भाजपा का एक ही उद्देश्य है कि आमजन भयमुक्त माहौल में अपना जीवन बसर करे। इस दौरान डिप्टी स्पीकर ने एसपी से जिला में पुलिसकर्मियों की संख्या व रिक्त पदों की जानकारी हासिल की ताकि अधिक से अधिक फोर्स को लाया जा सके। इसके अलावा क्राइम रिपोर्ट, एक्सिडेंट रिपोर्ट, महिला उल्पीडन के मामलों की भी जानकारी हासिल की गई ताकि विद्यमानों व क्राइम पर अंकुश लगाया जा सके।

बैठक में डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिश्रा ने कहा कि एकलव्य स्टेडियम में रैली होने जा रही है। इस रैली में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नयब

सैनी मुख्यअतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। रैली में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में शहर तथा रैली स्थल के आसपास क्षेत्र में सुरक्षा के पुष्ठा प्रबंध होने चाहिए। रैली में आने के लिए लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए स्पेशल टैफिक प्लान बनाया जाए ताकि हर कोई आसानी से रैली स्थल पर पहुंच सके। डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिश्रा ने कहा कि रैली के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए।

पीजीआईएमएस के नए निदेशक डॉ. सिंघल ने संभाला कार्यभार

एजेंसी

रोहतक। पीजीआईएमएस के नए निदेशक डॉ. एसके सिंघल ने अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने अपनी नियुक्ति पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नयब सिंह सैनी व स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का आभार व्यक्त किया और कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, वह पूरी ईमानदारी से उसका निर्वहन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पीजीआईएमएस को टॉप 10 कॉलेजों में शामिल करवाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। दरअसल डॉ. सिंघल ने वर्ष 1982 में पीजीआई से एमबीबीएस और वर्ष 1987 में पीजीआईएमएसआर चंडीगढ़ से एमडी की डिग्री हासिल की। वर्ष 1989 से पीजीआई में विभिन्न पदों पर रहते हुए 2008 में सीनियर प्रो बने और वर्ष 2021 से निश्चयन विभाग के अध्यक्ष

बने। पीजीआईएमएस में कार्डियक सर्जरी शुरू करने वाली टीम के सदस्य रहे और हरियाणा में पहली हृदय सर्जरी कराई। डॉ. सिंघल एमडीयू व



यूएएसआर में विभिन्न दायित्वों पर कार्यरत रहे हैं। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 118 पब्लिकेशन हैं। डॉ. सिंघल को डॉक्टर प्राइड अवार्ड 2022 और हेल्थ केंसर अवार्ड 2024 सहित कई अवार्डों से नवाजा जा चुका है।

हरियाणा में वन्य जीव बोर्ड का पुनर्गठन, मुख्यमंत्री होंगे चेयरमैन

एजेंसी

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए वन्य जीवों और वनों के संरक्षण और विकास के लिए राज्य वन्य जीव बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री नयब सैनी इस बोर्ड के चेयरमैन और पर्यावरण, वन एवं वन्य प्राणी मंत्री राव नरबीर सिंह वाइस चेयरमैन होंगे। इसके अलावा तीन विधायक, गैर सरकारी संगठनों के तीन प्रतिनिधियों तथा पर्यावरण एवं परिरक्षितिक क्षेत्र से जुड़े 10 लोग को सदस्य मनोनीत किया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। वन विभाग, लोक निर्माण और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक, पुलिस महानिदेशक, बिग्रेडियर जनरल स्ट्याफ ट्रेनिंग मुख्यालय (परिचामी कमान) चंडीगढ़, पशुपालन विभाग के

महानिदेशक, मत्स्य पालन निदेशक, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक या उनके प्रतिनिधि,



पंचकूला में होगा। बोर्ड का कार्यालय तीन वर्ष का रहेगा। सरकार आवश्यकता पड़ने पर इससे पहले भी बोर्ड का पुनर्गठन कर सकती है। बोर्ड

का मुख्य कार्य वन्य जीवों और वनों के संरक्षण, विकास के लिए नीतियां व कार्यक्रम तैयार करना, वन्य जीवों के अंधे ध्यान तथा शिकार को रोकना, राष्ट्रीय अंधाओं को पर्यटन स्थलों की स्थापना के अलावा प्रबंधन की सिफारिश करना है।

2047 में भारत को बदल देंगे आज के छात्र: गजेंद्र सिंह शेखावत

एजेंसी

गुरुग्राम। जीडी गोयनका विश्वविद्यालय ने अपना 10वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सम्मानित अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सेना मुख्यालय जनरल वी. के. सिंह रहे।

दोनों अतिथियों ने अपनी शुभकामनाओं के साथ 1491 स्नातकों को डिग्री वितरित की। समारोह में आईटीसी लिमिटेड के पूर्व कार्यकारी निदेशक निमेटुल आनंद को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (हॉनरिस कौसा) की उपाधिक प्रदान की गई। अपने संबोधन में गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्नातकों से

सामाजिक लाभ के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि आप सभी ने अपने और अपने माता-पिता दोनों के सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की है। आप वे छात्र हैं जो 2047 में भारत को बदल देंगे। हम सभी भारत के अमृत काल में हैं। छात्रों को बधाई देते हुए जनरल वीके सिंह ने

कहा कि मैं सभी स्नातक छात्रों को बधाई देना चाहता हूँ। शिक्षा आपको तीन अवश्यकर चीजें प्रदान करती है-ज्ञान और कौशल, विवेक और दूसरों का मार्गदर्शन करने की क्षमता। संस्थान छोड़ने के बाद आपको इस बात पर धरोसा करना चाहिए कि आपने क्या सीखा है। आपने जो नींव बनाई है, यदि

वह मजबूत है तो आप चुनौतियों से सफलतापूर्वक पार पा सकेंगे। प्रो. (डॉ.) किम मेनेजस ने कहा कि यह अपने अलावा मेटर की विरासत को आगे बढ़ाते हुए दुनिया में कदम रखने वाले स्नातकों के एक और समूह को देवना बहुत गर्व का क्षण है। कार्यक्रम का समापन कुलसचिव प्रो. (डॉ.) अनुशुधा

आर तिवारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। जीडी गोयनका समूह के प्रबंध निदेशक निपुण गोयनका ने कहा कि आज हमारे छात्रों के जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण इस उपलब्धि के क्षण में समाप्त हुआ है। जैसे ही वे पेशेवर दुनिया में कदम रखेंगे।

NAME CHANGE
I, hitherto known as SUDESH KUMAR YADAV alias SUDESH KUMAR So SUMER SINGH, P/O House Number-35, Ward No.-1, Village Ramgarh, Rewari, Haryana-123401, have changed my name and shall hereafter be known as SUDESH KUMAR for all future purposes.

पाम ऑयल और वनस्पति तेल उबले; अधिकांश दालें सस्ती

एजेंसी नई दिल्ली। विदेशी बाजारों में भारी गिरावट के बावजूद स्थानीय स्तर पर मांग निकलने से बीते सप्ताह दिल्ली थोक जिस बाजार में पाम ऑयल और वनस्पति तेल 439 रुपये प्रति क्विंटल तेज हो गए जबकि ऊंचे भाव पर उबल कमजोर रहने से अधिकांश दालें सस्ती हो गईं वहीं अन्य जिनसे में टिकाव रहा।

तेल-विलहन वैश्विक स्तर पर मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेवेलपमेंट एक्सचेंज में पाम ऑयल का दिसंबर वायदा सप्ताह पर 332 रिगिट लुकरकर 4787 रिगिट प्रति टन आ गया। इसी तरह दिसंबर का अमेरिकी सोया तेल वायदा 3.72 सेंट की गिरावट के साथ 41.84 सेंट प्रति पौंड बोला गया। इस दौरान खाद्य तेलों में मिलाजुला रख रहा। पाम ऑयल 367 रुपये और वनस्पति तेल 439 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हो गया। वहीं, सरसों तेल, मूंगफली तेल, सूरजमुखी तेल और सोया रिफाईंड के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और वे पिछले दिवस के स्तर पर पड़े रहे। सप्ताह पर सरसों तेल 17215 रुपये प्रति क्विंटल, मूंगफली तेल 19047 रुपये प्रति क्विंटल, सूरजमुखी तेल 14358 रुपये प्रति क्विंटल, सोया रिफाईंड 15018 रुपये प्रति क्विंटल, पाम ऑयल 13187 रुपये प्रति क्विंटल और वनस्पति तेल 16116 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा।

पेट्रोल और डीजल की कीमतें यथावत

नयी दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी रहने के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम आज यथावत रहे, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर पर पड़े रहे। तेल विपणन करने वाली प्रमुख कंपनियों हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन की वेबसाइट पर जारी दरों के अनुसार, देश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में इनकी कीमतों के यथावत रहने के साथ ही मुंबई में पेट्रोल 104.21 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर पर रहा। वैश्विक स्तर पर आज अमेरिकी क्रूड 1.54 प्रतिशत उबलकर बढ़कर 71.18 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इसी तरह लंदन क्रूड 0.15 प्रतिशत की बढ़त के साथ 75.28 डॉलर प्रति बैरल पर रहा।

नवंबर में भारत की कारोबारी गतिविधियां तीन माह के शीर्ष पर, सेवा उद्योग में सुधार और रिकॉर्ड रोजगार

नई दिल्ली। सेवा उद्योग में सुधार और रिकॉर्ड रोजगार पैदा होने से नवंबर में भारत की कारोबारी गतिविधियां तीन माह के शीर्ष पर पहुंच गईं। हालांकि, उत्पादन महंगाई 12 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। सर्वेक्षण के अनुसार, चालू त्योहारी तिमाही में आर्थिक विकास में आगे भी वृद्धि होने की संभावना है। इसमें निजी खपत में उछल के कारण तेजी आने की उम्मीद है। एसएंडपी ग्लोबल के मुताबिक, एचएसबीसी खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) अक्टूबर में 59.1 रहा। नवंबर में बढ़कर 59.2 रहा। पीएमआई में 50 से नीचे का स्तर कारोबार में कमजोरी दर्शाता है। एचएसबीसी के भारत में मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा, सेवाओं में वृद्धि व विनिर्माण में मामूली मंदी के बावजूद कारोबारी गतिविधियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया।

सेवा क्षेत्र का पीएमआई नवंबर में 59.2 पर रहा। सेवा क्षेत्र का पीएमआई बढ़कर नवंबर में 59.2 हो गया। अगस्त के बाद से सबसे अधिक है। विनिर्माण क्षेत्र का सूचकांक कम होकर 57.3 पर रहा जो अक्टूबर में 57.3 था। सेवा व विनिर्माण क्षेत्रों के लिए विदेशी मांग में सुधार से निर्यात चार माह के शीर्ष पर रहा। निर्यातों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के साथ सेवा क्षेत्र में भोजन व मजदूरी लागत पर मूल्य दबाव बढ़ रहा है।

एलन मस्क की संपत्ति 334.3 अरब डॉलर के पार, ट्रंप की जीत के बाद शेयरों में मजबूती से मिला लाभ

एजेंसी वाशिंगटन। फोर्ब्स के अनुसार एलन मस्क आधिकारिक तौर पर 334.3 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ इतिहास के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। यह इजाफा टेस्ला टेस्ला के शेयरों में तेजी के बाद आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद एलन मस्क की कंपनी के शेयरों में उछल दिखा है। चुनाव परिणामों के बाद टेस्ला के शेयरों में 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कंपनी के शेयर 3.8 प्रतिशत बढ़कर 352.56 डॉलर पर बंद हुआ, यह पिछले 3 वर्षों में इसका उच्चतम मूल्य है। इससे मस्क की संपत्ति में 7 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ और उनकी कुल संपत्ति 320.3 बिलियन डॉलर के पिछले उच्च स्तर से आगे निकल गई। एलन मस्क के ट्रंप के साथ घनिष्ठ संबंधों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। इस साल की शुरुआत में ट्रंप का समर्थन करने के बाद, मस्क ने उनके अभियान के लिए 100 मिलियन डॉलर से अधिक का दान दिया। उन्हें ट्रंप की ओर से नए सरकारी दक्षता विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह वे बायोटेक उद्यमी विवेक रामास्वामी के साथ काम करेंगे। टेस्ला के अलावे कृषि वृद्धि और एगरोस्पेस सेक्टर मस्क के उद्गमों में उनकी संपत्ति में और वृद्धि की है। 50 बिलियन डॉलर मूल्य की निजी एआई फर्म &AI में उनकी 60 प्रतिशत हिस्सेदारी ने उनकी संपत्ति में 13 बिलियन डॉलर जोड़े।

एसएसपी को कानूनी मान्यता देने पर विचार की सिफारिश, बढ़ते कृषि संकट पर सुप्रीम कोर्ट की समिति चिंतित

एजेंसी नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने पिछले दो दशकों में हरियाणा, पंजाब समेत देश में कृषि लागत व कर्ज बढ़ने व उपज उत्पादन घटने पर चिंता जताई है। समिति ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी मान्यता देने और प्रत्यक्ष आय मदद की पेशकश की संभावना पर गंभीरता से विचार करने की सिफारिश की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइया की पीठ ने देखी रिपोर्ट शंभू सीमा पर आंदोलनरत किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश नवाब सिंह के नेतृत्व में 2 सितंबर को उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि किसानों के विरोध का राशनोतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइया की पीठ ने शुरुआत को समिति की अंतरिम रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया। 11 पेज की अंतरिम रिपोर्ट में समिति ने कहा कि यह सर्वविदित तथ्य है कि देश में किसान विशेषकर पंजाब और हरियाणा में पिछले दो दशकों से अधिक समय से लगातार बढ़ते कृषि संकट का सामना कर रहा है। हरित क्रांति के प्रारंभिक उच्च लाभ के बाद 1990 के दशक के मध्य से उपज और उत्पादन वृद्धि में स्थिरता संकट की शुरुआत का संकेत है। किसानों और कृषि श्रमिकों पर कर्ज कई गुना बढ़ा समिति ने कहा कि हाल के दशकों में किसानों और कृषि श्रमिकों पर कर्ज कई गुना बढ़ गया है। वर्ष

सर्राफा बाजार में लगातार 5वें दिन तेजी, सोना और चांदी की बढ़ी चमक

एजेंसी नई दिल्ली घरेलू सर्राफा बाजार में सोना आज लगातार पांचवें दिन महंगा हुआ है। शुरुआती कारोबार में इस चमकीले धातु की कीमत में आज 750 रुपये से लेकर 820 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की तेजी दर्ज की गई है। इस तेजी के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज 79,790 रुपये से लेकर 79,640 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 73,150 रुपये से लेकर 73,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बना हुआ है। सोने की तरह आज चांदी के भाव में भी तेजी आई है, जिसके कारण दिल्ली सर्राफा बाजार में इसकी कीमत 93,300 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 79,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत 79,690 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 73,050 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह जयपुर में 24 कैरेट सोना 79,790 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 73,150 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 79,640 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 73,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 79,640 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 73,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना आज 79,640 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।



रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 73,150 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट

अमेरिकी प्रतिभूति विनिमय आयोग ने गौतम अडाणी और उनके भतीजे को किया तलब

एजेंसी न्यूयॉर्क/नई दिल्ली। अडाणी समूह के संस्थापक एवं चेयरमैन गौतम अडाणी और उनके भतीजे सागर को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने समन भेजकर तलब किया है। एसईसी ने उन पर लगे आरोपों पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। गौतम अडाणी के अहमदाबाद स्थित शांतिवन फार्म आवास और उनके भतीजे सागर के बोदकदेव आवास पर समन भेजकर 21 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। एसईसी ने अडाणी और उनके भतीजे से आकर्षक सौर ऊर्जा अनुबंध हॉस्पिटल करने के लिए 265 मिलियन डॉलर (2,200 करोड़ रुपये) की रिश्त देने के आरोप पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। ये अमेरिकी अभियोग एक अभियोग दस्तावेज शुरू किया गया एक औपचारिक लिखित आरोप है, जिसे एक आरोपित पक्ष के खिलाफ एक भयंकर प्रती के माध्यम से जारी किया गया है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कोर्ट के माध्यम से 21 नवंबर को भेजे गए नोटिस में कहा

गया है, इस समन की सेवा के 21 दिनों के भीतर (जिस दिन आपको यह समन मिला था, उसे छोड़कर)...आपको वादी (एसईसी) कोर्ट में दाखिल एक अभियोग पत्र के अनुसार 62 वर्षीय गौतम अडाणी उनके भतीजे सागर (अडाणी ग्रोन एनर्जी लिमिटेड के निदेशक) सहित



को संलग्न शिकायत का उत्तर या संशोधित सविनियमन प्रक्रिया नियमों के नियम 12 के तहत एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। यदि आप जवाब देने में विफल रहते हैं, तो शिकायत में मांगी गई राहत के लिए डिफॉल्ट रूप से आपके खिलाफ निर्णय दर्ज किया जाएगा। इस समन में कहा गया है कि आपको अपना उत्तर या प्रस्ताव भी न्यायालय में दाखिल करना होगा। उल्लेखनीय है कि न्यूयॉर्क के एक

आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता समिति की बैठक नई दिल्ली में संपन्न

एजेंसी नई दिल्ली। आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (एआईटीआईजीए) संयुक्त समिति की छठी बैठक राजधानी नई दिल्ली में संपन्न हो गई। बैठक में नेताओं ने 2025 तक वार्ता पूरी करने के लिए शीघ्र समीक्षा प्रक्रिया का आग्रह किया। बैठक नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में आयोजित की गई थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि एआईटीआईजीए संयुक्त समिति की 21 से 22 नवंबर तक चली दो दिवसीय बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल और मलेशिया के निवेश, व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय की उप-महासचिव (व्यापार) मस्तुरा अहमद मुस्तफा ने की। बैठक में भारत और सभी 10 आसियान सदस्य देशों बुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के प्रतिनिधि शामिल हुए।

मंत्रालय के मुताबिक एआईटीआईजीए समीक्षा वार्ता के इस दौर से पहले दो उच्च स्तरीय बैठकें हुई थीं, जिसमें सितंबर 2024



में 21वीं आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक और अक्टूबर 2024 में 21वीं आसियान-भारत शिखर बैठक शामिल हैं। ये दोनों बैठक वियनतियाने लाओस में हुई थीं। उल्लेखनीय है कि आसियान एक समूह के तौर पर भारत के प्रमुख व्यापार भागीदारों में से एक है, जिसकी भारत के वैश्विक व्यापार में करीब 11

जादूगरों के शो, पत्र लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहा है डाक विभाग

एजेंसी नई दिल्ली। भारतीय डाक विभाग यहां के भारत मंडयम में आयोजित 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान आगंतुकों को जादूगरों के शो और पत्र लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहा है।

शाजिद विकास ने 'यूनीवार्ता' को बताया, भारतीय डाक व्यवस्था में

योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मुहैया



बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं। यह अब पूरी तरह से डिजिटल रूप ले चुका है। हमारी कोशिश यह है कि बदलती डाक व्यवस्था और इसकी

कराई जाए। इसके लिए हमने यहां पर सात डेस्क- आधार डेस्क, बहुउद्देशीय डेस्क, बचत बैंक, बाल आधार, डिजिटल लाइफ

सर्टिफिकेट (डीएलसी) डेस्क और फिलेटोरी (टिकट इकट्ठा करने का काम) डेस्क स्थापित किये हैं, जहां पर आगंतुकों को बदली डाक व्यवस्था और इसकी योजनाओं के बारे में आगंतुकों को जानकारी दी जा रही है। अगर किसी व्यक्ति को डाक व्यवस्था से जुड़ी कोई समस्या है, तो हमलोग उसका भी निदान कर रहे हैं।

श्री विशाल ने कहा, ज्यादा से ज्यादा आगंतुक डाक पवेलियन में आएं और इसके बारे में जानकारी हासिल करें, इसके लिए हम समय-समय पर जादूगर के शो और पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय डाक पत्र लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित कराया।

वाणिज्य सचिव बर्थवाल ने टीईपीए के कार्यान्वयन के लिए नॉर्वे का दौरा किया

एजेंसी नई दिल्ली। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत और चार देशों के यूरोपीय बलॉक ईएफटीए सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र लागू करने पर चर्चा के लिए नॉर्वे का दौरा किया।

डॉलर के निवेश के शीघ्र कार्यान्वयन को बढ़ावा देना था। मंत्रालय ने बताया कि टीईपीए के रूप में नामित

आइसलैंड, लिक्टेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक इस यात्रा का उद्देश्य



इस समझौते पर मार्च में आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि, इसे लागू करने की तारीख को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ईएफटीए के सदस्यों में

भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए ईएफटीए देशों में बड़े बाजार को खोलना और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए दबाव बनाना था।

'भारत को अपनी छवि जिम्मेदार पूंजीवादी देश वाली बनानी चाहिए'

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत को एक जिम्मेदार पूंजीवादी राष्ट्र के रूप में ब्रांडिंग करने का आह्वान किया है, जिसमें पूंजीवाद की सीमाओं के बारे में देश की गहरी समझ पर जोर दिया गया है। इंडिया फाउंडेशन की ओर से आयोजित 8वें इंडिया आइडियाज कांफ्लेव में बोले हुए, सीतारमण ने टिकाऊ जीवन और जिम्मेदार उपभोग के भारत के पारंपरिक मूल्यों पर बात की। उन्होंने कहा, 'यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी ज़रूरत के अनुसार उपयोग करें न कि अपने लालच के अनुसार। हमें समझना चाहिए कि पूंजीवाद की अपनी सीमाएं हैं और हमें भारत को एक जिम्मेदार पूंजीवादी देश के रूप में ब्रांड करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से संस्कृत इकोनॉमी और पुनः उपयोग जैसे सिद्धांतों को अपनाया वैश्विक रज्जानों

से प्रेरित नहीं था, बल्कि आवश्यकता और जिम्मेदारी से प्रेरित था। सीतारमण ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हमें संस्कृत इकोनॉमी और पुनः उपयोग के सिद्धांत का पालन नहीं किया क्योंकि हम एक गरीब राष्ट्र थे। हमने इसे अपनी ज़रूरत के अनुसार उपयोग करना अपनी जिम्मेदारी के रूप में सोचा न कि अपने लालच के अनुसार। वित्त मंत्री ने कहा कि



निर्मला सीतारमण ने आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करने पर्यटन को बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने देश पर शीर्ष 100 पर्यटन केंद्रों में स्व-शिक्षण डिजिटल कार्यक्रम बनाने का सुझाव दिया। ये कार्यक्रम वास्तुशिल्प के महत्व, पर्यटन मूल्य और संस्कृत और पारंपरिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, हमें उन लोगों के

लिए शिक्षण सामग्री प्रदान करने चाहिए जो पर्यटन के लिए एक बहु-विषयक दृष्टिकोण अपनाते हुए, भारतीय वास्तुशिल्प के विशिष्ट चमत्कारों को समझना चाहते हैं। सीतारमण ने विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक मानक स्थापित करने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने खाद्य और औषधीय सुरक्षा में शीर्ष मानकों को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन

को ताकत बरकरार है। एक शीर्ष वैज्ञानिक इरविन श्रोडिंगर ने कहा था कि मेरे अधिकांश विचार और सिद्धांत वेदांत से काफी प्रभावित थे। सीतारमण ने कहा कि इस वैज्ञानिक विरासत को ब्रांड भारत-के दृष्टिकोण में एकीकृत किया जा चाहिए, जिसमें भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता पर जोर दिया जाना चाहिए।

शादी में जाने के लिए खुद कर रही हैं मेकअप तो ध्यान रखें ये स्टेप्स



वेडिंग सीजन में पालर भी फूल रहते हैं और इसके चलते कई बार मेकअप का ऑइंटमेंट नहीं मिलता है या फिर समय नहीं रहता है, ऐसे में अगर आपको घर पर ही मेकअप करना पड़े तो कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप परफेक्ट मेकअप लुक पा सकती हैं।

पाटी हो या शादी हर कोई चाहता है कि वह खूबसूरत दिखे। खासतौर पर लड़कियां अपने आउटफिट से लेकर मेकअप तक हर एक चीज का खास ध्यान रखती हैं। इसी वजह से वेडिंग सीजन में कई बार पालर का ऑइंटमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है या फिर अगर किसी करीबी की शादी हो तो इतना वक्त नहीं होता है कि पालर जाया जा सके, ऐसे में लास्ट मॉमेंट काफी उत्पन्न हो जाती है। किसी की शादी में जाने के लिए अगर खुद मेकअप करना हो तो कुछ छोटी बातों को ध्यान में रखकर परफेक्ट मेकअप लुक पाया जा सकता है। मेकअप करते वक्त ज्यादातर लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत फाउंडेशन बेस को ब्लेंड करने में होती है, लेकिन छोटी-छोटी टिप्स को फॉलो कर लिया जाए तो आप पालर की तरह घर पर भी अपने चेहरे पर फाउंडेशन बेस को बिल्कुल सही तरीके से ब्लेंड कर सकती हैं। तो चलिए जान लेते हैं मेकअप करके वक्त मिलने स्टेप्स को ध्यान में रखना चाहिए।

स्किन को करें मेकअप के लिए तैयार
मेकअप करने से पहले त्वचा को रेडी करना जरूरी होता है, तभी आपका बेस सही तरह से ब्लेंड होता है और मेकअप केकी नजर नहीं आता। इसके लिए सबसे पहले चेहरे को क्लींजिंग से क्लीन करें और मॉइस्टराइजर अप्लाई करें। इसको 30 सेकंड का रेस्ट दें और फिर प्राइमर अप्लाई करें। इसके पैसे खुले हुए दिखाई नहीं देंगे।

ऐसे तैयार करें फाउंडेशन बेस
चेहरे पर अगर दाग-धब्बे हैं या फिर स्किन टोन अन-ईवन है तो कलर करेक्टर या स्किन करेक्टर को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसे सही तरह से लगाना आना चाहिए। प्रभावित जगहों पर कलर करेक्टर अप्लाई करें और टैप-टैप करके स्किन में ब्लेंड करें। मेकअप बेस के लिए एक फाउंडेशन चुनें जो आपकी स्किन टोन से मैच खाता हो। इसके लिए आप फाउंडेशन को हथके उल्टे साइड लगाकर ट्राई कर सकती हैं। पहली बार या नया ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हैं तो इसे पहले पानी में भिगो दें और इसे अच्छी तरह से निचोड़ लें इसे कुछ देर तक हवा में रख दें। जब इसमें सिर्फ नमी रह जाए तो इससे अपने बेस को ब्लेंड करें।

हाइलाइट और ब्लश का ऐसे करें यूज
चेहरे पर ब्लश को सिर्फ चिक्मस यानी गालों पर लगाया जाता है ताकि नेचुरल ग्लो दिखाई दे। इसके लिए थोड़ा सा ब्लश अप्लाई करके ब्लेंड कर लें। हाइलाइटर को चीकबोन, नोज, जॉलाइन को डिफाइन करने के लिए लगाया जाता है।

आईशेडो और लाइनर करें अप्लाई
बेस तैयार हो जाने के बाद आंखों के मेकअप की बारी आती है। आप चाहे तो आउटफिट से मैच करता हुए आईशेडो के शेड लगा सकती हैं या फिर अपनी स्किन टोन के मुताबिक शेड लें, जैसे सांवली त्वचा पर गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज आदि मेटैलिक शेड्स अच्छे लगते हैं। इसके बाद लाइनर अप्लाई करें।

इस तरह लगाएँ लिफ्टिक
मेट लिफ्टिक लगा रही हैं तो ब्रश से लिफ्टिक निकालते वक्त ध्यान रखें कि उसपर बहुत ज्यादा शेड न हो, नहीं तो आपको हेवी महसूस होगा। अगर लिफ्ट लाइनर का यूज कर रही हैं तो डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन रखें ताकी दोनों चीजें ब्लेंड हो जाएं, जैसे रेड के साथ आप मैरून कलर का लाइनर यूज कर सकती हैं। इस तरह से आपको एक परफेक्ट मेकअप लुक घर पर ही मिल जाएगा।

सुरिखा बटोरने के लिए यूपी के महिला आयोग का पैतरा

आयोग की इस सिफारिश को अब शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है। आयोग के इस प्रस्ताव में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की मौजूद हालत जिक्र नहीं है। आयोग ने यह भी नहीं बताया कि सिफारिश में किए गए प्रावधान ही क्या महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं।

देश के संवैधानिक आयोग नखदंतविहीन हैं। ऐसे में भी आयोग के कर्ताधर्ता नेताओं की तरह व्यवहार करके आयोग की गरिमा को कम करने के साथ ही उपहास का पात्र बनते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य महिला आयोग ने इसी तरह का कृत्य करके अपनी महत्ता को कम करने का काम किया है। आयोग ने योगी सरकार को एक सिफारिश की। इसमें प्रदेश में पुरुष टेलर द्वारा महिलाओं के कपड़ों के माप लेने पर रोक लगाने, कॉर्चिंग सेंट्रों में सीसीटीवी कैमरे, जिम में महिला ट्रेनर लगाने का जिक्र किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए आयोग ने यह प्रस्ताव भेजा है। आयोग का यह कृत्य दर्शाता है कि आयोग मूल उद्देश्य से भटक कर राजनीतिक पैतरेबाजी करने में जुटा है। आयोग को उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार करने से कोई सरोकार नहीं है।

आयोग की इस सिफारिश को अब शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है। आयोग के इस प्रस्ताव में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की मौजूदा हालत जिक्र नहीं है। आयोग ने यह भी नहीं बताया कि सिफारिश में किए गए प्रावधान ही क्या महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। आयोग ने अपराधों के बाद पुलिस कार्रवाई के तौर-तरीकों पर एक लाइन भी नहीं कही। बालिकाओं के शैक्षणिक स्थलों के पास छेड़छाड़ की घटनाएँ रोकने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की स्थायी तैनाती पर आयोग चुप रहा। महिला आयोग ने यह भी नहीं बताया कि प्रदेश में इतनी संख्या में प्रशिक्षित महिलाएँ का इंतजाम कैसा होगा। क्या सरकार इसके लिए महिलाओं के प्रशिक्षण का इंतजाम करने में सक्षम है। प्रशिक्षण के बाद स्वरोजगार के लिए महिलाओं को ऋण और स्थान इत्यादि की व्यवस्था कैसे होगी, इस पर आयोग की सिफारिश में कोई जिक्र नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा की चिंता करने वाला उत्तर प्रदेश का महिला आयोग यह भूल गया कि प्रदेश की



सर्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमराई हुई है। यात्रियों से ठसठास भरे वाहनों में महिलाओं को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के लिए प्रदेश में अलग से परिवहन की व्यवस्था नहीं है। आरक्षित सीटों पर भी महिलाओं को भारी मशकत करनी पड़ती है। सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं से छेड़छाड़ की बात आम है। महिला हितों की पैरवी करने वाले महिला आयोग की निगाह यहाँ तक नहीं पहुँची। इसी तरह महिलाओं की बीमारियों से और प्रसूती की हालत से निपटने के लिए पर्याप्त चिकित्सकों और अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है। आयोग ने पुलिस थानों में महिलाओं की पर्याप्त संख्या और महिला पुलिस थानों की जरूरत पर जवाब नहीं दिया। महिलाओं के लिए आज भी पुलिस थानों में जाकर शिकायत दर्ज कराना आसान नहीं है। पुलिसकर्मियों पीड़ित महिलाओं से किस तरह का व्यवहार करते हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने माफिया और गैंगस्टर्स को धूल चटाने में कसर बाकी नहीं रखी। प्रदेश से लगभग सभी बड़े माफिया और गैंगस्टर्स या तो मारे जा चुके हैं या फिर जेलों में बंद हैं। इसके बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि आम लोगों के लिए पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार हुआ है। पुलिस में भ्रष्टाचार और भेदभाव की घटनाएँ

आम हैं। आयोग ने इन तमाम मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया। आश्रय की बात यह है कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों में महिलाओं की नियुक्ति की पैरवी करने वाला आयोग राज्य में महिलाओं के साथ हुए अपराधों पर सक्रिय कार्रवाई नहीं कर सका। हथसू और उत्राव कांड इसका उदाहरण है। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए आयोग ने कोई भूमिका नहीं निभाई। 14 सितंबर, 2020 को हथसू में एक दलित युवती के साथ चार पुरुषों ने सामूहिक बलात्कार किया। इसी तरह 4 जून, 2017 को उत्राव में 17 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। इसमें लड़की की मौत हो गई। ऐसे मुद्दों पर आयोग कोई ठोस सुझाव राज्य सरकार को नहीं दे सका। भारत में बाल मजदूरों का सबसे ज्यादा संख्या 5 राज्यों में है। सबसे ज्यादा बाल मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। उत्तर प्रदेश में 21.5 फीसदी यानी 21.80 लाख और बिहार में 10.7 फीसदी यानी 10.9 लाख बाल मजदूर हैं। उत्तर प्रदेश में बाल मजदूरों की संख्या 21.7 लाख है। यह यूपी की कुल आबादी का 21 फीसदी है। हालांकि यह मुद्दा सीधा महिला आयोग के तहत नहीं आता, फिर कोई महिला अपने कलेजे के टुकड़े से मजदूरी कैसे करवा सकती है। महिला आयोग ने कभी इस पर विचार नहीं किया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की

रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों (जैसे बलात्कार, हत्या, अपहरण, बलात्कार के बाद हत्या और सामूहिक बलात्कार) की कुल संख्या में उत्तर प्रदेश देश में सबसे ऊपर रहा। इसमें 65,743 ऐसे मामले दर्ज किए गए। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने राज्य की बागडोर संभाली थी, तो उन्होंने महिलाओं के सार्वजनिक उत्पीड़न को रोकने के लिए ए-एटी-रोमियो स्कॉर्ड का गठन किया था। बाद में उनकी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा के नाम पर गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 बनाया, जिसे लव-जेहाद विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। अपराध के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि इन कानूनों के बन जाने के बाद भी महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। इसकी राज्य महिला आयोग ने कभी समीक्षा नहीं की। गौरतलब है आयोग को सिर्फ नोटिस देकर बुलाने का अधिकार है, कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। अपने इस अधिकार के लिए भी आयोग ने कभी आवाज बुलंद नहीं की। इससे साफ जाहिर है कि आयोग का महिलाओं की सुरक्षा की सिफारिश का दावा खोखला है। धरातल की हालत से दूर ऐसी सिफारिश सिर्फ सुरिखा बटोरने से ज्यादा कुछ नहीं है।

संपादकीय

कातिल सड़कों पर तबाह होता जीवन एक गंभीर चुनौती

अलीगढ़ में सड़क हादसा, यमुना एक्सप्रेसवे पर बस-ट्रक भिड़ें, 5 की मौत, 15 से अधिक घायल। राजस्थान में पाली-जोधपुर हाइवे पर मरीज को एक एम्बुलेंस से दूसरे में शिफ्ट करते समय डम्पर ने मारी टक्कर, चार की मौत। दिल्ली के सिनेचर ब्रिज पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में जामिया हम्दद विश्वविद्यालय के दो मेडिकल छात्रों की मौत। लखनऊ में दो अलग-अलग सड़क हादसों में वृद्धा समेत दो की मौत। उत्तराखंड के देहरादून में 12 नवंबर को हुए सड़क हादसे में 6 छात्रों की मौत। ऐसे अनेक सड़क हादसे पिछले दो-तीन दिन में हुए हैं। वाकई भारत की सड़कों पर चलना अब जान हथेली में रखकर चलने जैसा ही होता जा रहा है। ये कातिल सड़क हादसे गंभीर एवं चुनौतीपूर्ण हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ऐसी दुर्घटनाओं में निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं। देश की इन कातिल एवं खूनी सड़कों की हकीकत बताता केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय का एक डराने वाला आंकड़ा पिछले दिनों सामने आया। मंत्रालय के अनुसार पिछले दस सालों में हुए सड़क हादसों में 15

लाख लोग मारे गए। कमोबेश सारे देश में ऐसी घटनाएँ सुनने में आती हैं जिनमें रोज सैकड़ों लोगों की जीवन लीला समाप्त हो जाती है।

भारत का सड़क यातायात तमाम विकास की उपलब्धियों एवं प्रयत्नों के बावजूद असुरक्षित एवं जानलेवा बना हुआ है, सुविधा की खूनी एवं हादसे की सड़कें नित-नया त्रासदियाँ की गवाह बन रही हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाएँ मौतों और चोटों के प्रमुख कारणों में से एक रही हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत की जीडीपी का करीब तीन से पांच फीसदी हिस्सा सड़क हादसों में लगा है। न केवल भारत बल्कि विश्व में सड़क यातायात में मौत या जखमी होना कुछ बहुत बड़ी परेशानियों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वर्ष 13 लाख से अधिक लोग सड़क हादसों के शिकार व्यक्ति की मौत हो जाती है। ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि देश में हर दस हजार किलोमीटर पर मरने वालों की दर 250 है जबकि अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया में यह संख्या 57, 119

व 11 है। निश्चित रूप से भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों का यह आंकड़ा एक संवेदनशील व्यक्ति को हिलाकर रख देता है। सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें भारत में होती हैं। परिचय ही है। सड़क दुर्घटनाओं के केन्द्र एवं राज्य सरकारों दुर्भाग्यपूर्ण बतती हैं, उस पर कुछ व्यक्त करती हैं, मुआवजे का हल्ला भर करती हैं लेकिन बड़ा प्रश्न है कि दुर्घटनाएँ रोकने के गंभीर एवं प्रभावी उपाय अब तक क्यों नहीं किए जा सके हैं? जो भी हो, सवाल यह भी है कि इस तरह की तेज रफ्तार सड़कों पर लोगों की जिंदगी कब तक इतनी सस्ती बनी रहेगी? सचाई यह भी है कि पूरे देश में सड़क परिवहन भारी आरजकता का शिकार है। सबसे भ्रष्ट विभागों में परिवहन विभाग शुमार है। भारत में साल 2022 में सड़क हादसों में 1,68,491 लोगों की मौत हुई थी। वहीं, साल 2023 में सड़क हादसों में करीब 1,73,000 लोगों की मौत हुई, यानी, साल 2023 में हर दिन औसतन 474 लोगों की मौत हुई।

सुधार लाकर हर साल तीस हजार से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। अध्ययन के मुताबिक, खुनी सड़कों एवं त्रासद दुर्घटनाओं के मुख्य कारण हैं- वाहनों की बेलगाम या तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाना, हेलमेट नहीं पहनना और सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना शामिल है। भले ही हर सड़क दुर्घटना को केन्द्र एवं राज्य सरकारों दुर्भाग्यपूर्ण बतती हैं, उस पर कुछ व्यक्त करती हैं, मुआवजे का हल्ला भर करती हैं लेकिन बड़ा प्रश्न है कि दुर्घटनाएँ रोकने के गंभीर एवं प्रभावी उपाय अब तक क्यों नहीं किए जा सके हैं? जो भी हो, सवाल यह भी है कि इस तरह की तेज रफ्तार सड़कों पर लोगों की जिंदगी कब तक इतनी सस्ती बनी रहेगी? सचाई यह भी है कि पूरे देश में सड़क परिवहन भारी आरजकता का शिकार है। सबसे भ्रष्ट विभागों में परिवहन विभाग शुमार है। भारत में साल 2022 में सड़क हादसों में 1,68,491 लोगों की मौत हुई थी। वहीं, साल 2023 में सड़क हादसों में करीब 1,73,000 लोगों की मौत हुई, यानी, साल 2023 में हर दिन औसतन 474 लोगों की मौत हुई।

महाराष्ट्र-झारखंड में सियासी सूझबूझ मस्त, अहंकार परत

महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा की दो सीटों और विभिन्न दर्जनाधिक राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम चौंकाने वाले हैं। ये चुनाव परिणाम इस बात का स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि मतदाताओं ने जहाँ सियासी सूझबूझ को ग्रेस देते हुए मस्त कर दिया है, वहीं राजनैतिक अहंकार को पूरी तरह से परत करके जमीन पर ला दिया है। मतलब यह कि पारस्परिक सिरफुटीव्वल को सिरे से खारिज कर दिया है।

दो टूक शब्दों में कहें तो मतदाताओं ने जहाँ महाराष्ट्र के भाजपा नेता व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सहयोगियों सहित और झारखंड के जेएमएम नेता व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साथियों सहित अपनी-अपनी सियासत को नए सिरे से आगे बढ़ाने का मौका दिया है। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एनसीपी शरद पवार के नेता शरद पवार/सुप्रिया सुले, शिवसेना युटूबी के नेता उद्धव भाऊ ठाकरे, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव आदि को जोर का झटका धीरे से दिया है, क्योंकि इनके बीच समुचित सामंजस्य के अभाव को मतदाताओं ने समय रहते ही भांप लिया और इनकी उम्मीदों के विपरीत परिणाम दिया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस नेत्री व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लाज जनता ने बचा ली है। वहीं, पंजाब में आप-कांग्रेस की टक्कर एकबार फिर सामने आई है, जो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगी। वहीं, कांग्रेस नेत्री और वायनाड, केरल के लोकसभा उपचुनाव की प्रत्याशी प्रियंका गांधी को जीत देकर उनका राजनीतिक मार्ग प्रशस्त कर दिया है। जबकि

महाराष्ट्र के नाइड लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस की शिकस्त और बीजेपी को बढ़त मिली है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र के शिवसेना नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा एनसीपी नेता व उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी अपने-अपने दल को तोड़ने के बावजूद अपनी-अपनी पार्टी की विरासत पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। उनके इस मिशन को पूरा करने में भाजपा नेता व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चमत्कारिक नेतृत्व के योगदान को नकारा नहीं जा



सकता है। कुल मिलाकर एक ओर महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति (गठबंधन) को प्रचंड जीत मिली है, वहीं दूसरी ओर झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में सफलता हासिल कर ली है। अब इनका मुख्यमंत्री कौन होगा और उनकी मंत्रिमंडल कैसा होगा, इसको लेकर माथापच्ची शुरू हो चुकी है। वहीं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना युटूबी के महाविकास अगाड़ी के अलावा यूपी

विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बिहार विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के निराशाजनक प्रदर्शन से इनकी आंतरिक रसाकशी का भी भंडाफोड़ हो चुका है। इससे इनके लोकसभा चुनावों के संयुक्त प्रदर्शन पर भी पानी फिर गया है। इससे सेक्यूलर मतदाताओं में भी गहरी निराशा छा गई है। हालांकि, झारखंड में कांग्रेस और राजद को मिली जीत से पार्टी के नेतृत्व को थोड़ी राहत मिली है। वहीं, एनडीए की जोरदार सफलता से विकास, हिंदुत्व

व राष्ट्रवाद की भावना एक बार फिर उफान पर है, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के %बटेंगे तो कटेंगे% के नारे और पीएम नरेंद्र मोदी के %एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे% के नारों का असर महाराष्ट्र से लेकर यूपी-बिहार तक दिखाई पड़ा है। राजस्थान, मध्यप्रदेश से लेकर असम तक इसका असर पड़ा है। लेकिन झारखंड में यह नारा कैसे मिसफायर कर गया, यह शोध का विषय है। वहीं, बंगलादेशियों/रोहिंया मुसलमानों का मुद्दा भी यहाँ फेल हो गया, क्योंकि इन लोगों ने गोलबंद होकर इंडिया गठबंधन को पोल कर दिया।

वहीं, लाडली बहना योजना की सफलता ने महाराष्ट्र की महायुति सरकार को फिर से वहाँ लौटने का मौका दिया है। वहीं, केरल और कर्नाटक में कांग्रेस की सियासी इज्जत बच गई है। बावत है कि लगभग एक दर्जन से अधिक राज्यों की 48 विधानसभा सीटों सहित लोकसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे और इनके रज्जानों से उपर्युक्त आशय के संकेत मिले हैं। इन 48 सीटों में से यूपी की 9 सीटों पर देशभर की निगाहें लगी हुई हैं, जहाँ बीजेपी नेता व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 सीट जीतकर एकबार फिर अपना जलवा दिखा दिया है, जबकि सपा को मात्र 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जिससे उसके पीडीए का दम्भ चकनाचूर हो गया। उधर, बिहार में राजद विस उपचुनाव वाली चारों सीटों पर पिछड़ती चली गई, जिससे तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर अब सवाल उठने लगा है।

इसके अलावा वायनाड सीट के रिजल्ट को लेकर भी काफी उत्सुकता है, जहाँ से प्रियंका गांधी वाड़ा ने जीत हासिल की है। साथ ही राजस्थान में 7, पश्चिम बंगाल में 6, असम में 5, पंजाब और बिहार में 4-4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे से जहाँ सत्ताधारी गठबंधन सब पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं, कर्नाटक और केरल में 3-3 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस गठबंधन की लाज बच गई है। इनके अलावा उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर नजरें टिकी हैं, जहाँ भाजपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। इससे साफ है कि महाराष्ट्र-झारखंड में सियासी सूझबूझ मस्त साबित हुआ, जबकि अहंकार परत हो गया।

काटरेग्राफर क्रिएटिविटी से जुड़ा भविष्य

अगर आपकी सोच कुछ सृजनात्मक है, आप चीजों को नए ढंग से सोच सकते हैं तो आपके लिए काटरेग्राफर की दुनिया में करियर बनाना आसान है। डिमांड के अनुसार इस फील्ड में ट्रेड प्रोफेशनल्स के लिए स्कोप भी बढ़े हैं, लेकिन यह केवल उन्हीं के लिए है, जो अपने विषय के साथ-साथ इसमें प्रयोग होने वाली नई टेक्नोलॉजी में भी पूरी तरह से निपुण हैं

→ क्या है काटरेग्राफर

काटरेग्राफर साइडिफिकल, टेक्नोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल इनफॉर्मेशन को डायग्राम, चार्ट, स्प्रेडशीट और मैप के रूप में पेश करता है।

→ योग्यता

काटरेग्राफर बनने के लिए बैचलर ऑफ काटरेग्राफी करनी होती है। उन्हें अपनी बीएससी या बीटेक में एक विषय काटरेग्राफी रखना चाहिए। अगर आप काटरेग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको इससे संबंधित डिग्री या डिप्लोमा कोर्स जरूर करना चाहिए। काटरेग्राफी में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक है।

→ व्यक्तिगत गुण

इस फील्ड में करियर बनाने वाले को कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। एक काटरेग्राफर को ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों में डिजाइनिंग का सेंस होता है, वे किसी फोटोग्राफ और ड्राइंग को बारीकी से समझकर मैप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। काटरेग्राफी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए मैथमेटिकल स्किल्स और रिसर्च वर्क भी आना चाहिए। उनमें विजुअलाइजेशन, पेशेंस, हार्डवर्क और काम को लेकर डेडिकेशन जैसी काबिलियत भी होनी चाहिए। काटरेग्राफर अपने क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से मैप तैयार करता है। इसके अलावा, वे मैप्स डिजिटल और ग्राफिक, दोनों में बनाए जा सकते हैं। कम्प्यूटर स्किल्स के अलावा इस फील्ड में कार्य करने वाले को ज्योग्राफिकल इनफॉर्मेशन सिस्टम और डिजिटल मैपिंग की तकनीकी जानकारी रखनी होती है।

→ कार्य की प्रकृति

काटरेग्राफर मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी एजेंसियों, रक्षा मंत्रालय, संरक्षण ट्रस्टों और कंपनियों, सत्रेयर और प्रकाशन कंपनियों के लिए काम करते हैं। इनका काम काफी जिम्मेदारियों से भरा होता है। काम के मुताबिक उन्हें अपना आउटपुट देना होता है। ये मिलिट्री, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, एजुकेशनल, पॉलिटेक्निकल या टूरिस्ट्स का रोड मैप तैयार करते हैं।

→ कहाँ हैं नौकरियाँ

मैप का इस्तेमाल एक इंडिस्ट्रियल से लेकर इंडस्ट्रियल परंपज तक के लिए किया जाने लगा है, इसलिए प्लानर्स, यूटिलिटी कंपनियों, स्टेट एजेंसीज, कंस्ट्रक्शन कंपनियों, सत्रेयर्स, आर्किटेक्ट्स- सभी को काटरेग्राफर की जरूरत पड़ती है। इस तरह वेदर फोरकास्टिंग, ट्रेवल एंड टूरिज्म, ज्योलॉजिकल, मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिलिट्री डिपार्टमेंट, पब्लिशिंग हाउसेज में जबकि अच्छे मौके हैं, जहाँ पर मैपिंग तकनीशियन, मैप लाइब्रेरियन, भौगोलिक सूचना पध्दाली अधिकारी, भूविज्ञानी, भूभौतिकीविद, ग्राफिक डिजाइनर, जल सत्रेयण सत्रेयर, भूमापक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदि के पदों पर नौकरी की तलाश कर सकते हैं।

→ वेतन

शुरुआती दौर में इसमें 15 से 20 हजार रुपये महीने आसानी से कमाये जा सकते हैं। हालांकि यह संस्थान पर काफी निर्भर करता है। इस क्षेत्र में विदेश में भी अच्छी मांग है।

→ संस्थान

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली

मद्रास विविद्यालय, चेन्नई

पंजाब विविद्यालय, चंडीगढ़

उस्मानिया विविद्यालय, हैदराबाद

नेशनल एटलस एंड थीमैटिक मैपिंग ऑर्गनाइजेशन, कोलकाता

फ्लावर मेकिंग का काम आप 25 से 30 हजार रुपए में शुरू कर सकते हैं। अगर आप बड़े स्तर पर यह काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको उसी हिसाब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वैसे दो लाख रुपए में यह काम काफी बड़े स्तर पर खोला जा सकता है...

आज हाथ से बने फूलों की डिमांड इसलिए और अधिक रहती है, क्योंकि वे अधिक दिनों तक ताजा दिखते हैं। ऐसे में जहाँ कई दिनों तक या लगातार सजावट की जरूरत होती है, वहाँ हाथ से बने फूलों की अहमियत बढ़ जाती है। इसके अलावा ये फूल झड़ते नहीं हैं, जिससे गंदगी नहीं फैलती। इन्हीं सब कारणों के चलते फ्लावर मेकिंग एक बेहतर करियर विकल्प के रूप में उभरकर सामने आया है। डेकोरेशन की बढ़ती मांग और असली फूलों की कमी के चलते आर्टिफिशियल यानी मशीनों व हाथ से बने फूलों का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में फ्लावर मेकिंग को आप आजीविका का बेहतर साधन बना सकते हैं। आइए जानते हैं इस फील्ड के बारे में-

जानें फ्लावर मेकिंग को

फ्लावर मेकिंग एक हस्तकला है, जिसमें कोई भी हाथों से तरह-तरह के फूल बना कर बाजार में सप्लाई कर सकता है। इन्हें बनाने के लिए मोती, टिशु पेपर, रिबन, ऑर्गेंजा यानी कपड़ा और साटन का इस्तेमाल होता है। इनका उपयोग सजावट के अलावा गिफ्ट पैकिंग, एनवेलप मेकिंग, बुके और गुलदस्ते बनाने में भी होता है।

जगह का चुनाव

फ्लावर मेकिंग का काम आप एक छोटे-से कमरे में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस काम को बड़े स्तर पर करना चाहते हैं, तो आपको एक हॉल की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप शोरूम बनाएंगे तो आपके काम में इजाफा होगा। हाउसहोल्ड काम होने के कारण आप इसे इंडस्ट्रियल या नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं भी खोल सकते हैं। केवल इतना ध्यान रखें कि आपको कच्चा माल लाने और तैयार माल भेजने में कोई दिक्कत न हो।

क्या है लागत

फ्लावर मेकिंग का काम आप 25 से 30 हजार रुपए में शुरू कर सकते हैं। अगर आप बड़े स्तर

बनाइए फ्लावर मेकिंग में फ्यूचर

पर यह काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको उसी हिसाब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वैसे दो लाख रुपए में यह काम काफी बड़े स्तर पर खोला जा सकता है। काम की तरकीब के लिए अगर आप शोरूम खोलना चाहते हैं या फिर फ्लावर मेकिंग के साथ डेकोरेशन का काम भी शुरू करना चाहते हैं, तो आपको उसी हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा। यानी स्तर के हिसाब से लागत बढ़ेगी।



तैयार माल की बिक्री

आप अपने द्वारा निर्मित फूलों को यूं तो फूलों के बाजारों में बेच सकते हैं, मगर अच्छी बिक्री के लिए आपको कुछ खास सेलिंग प्वाइंट्स पर कांटे करने की जरूरत पड़ेगी। ये सेलिंग प्वाइंट होटल, डेकोरेटर, मॉल और रेस्तरां और बड़े-बड़े शोरूम हो सकते हैं।

कैसी है आमदनी

फ्लावर मेकिंग में आमदनी आपकी कार्यक्षमता और मार्केटिंग, दोनों पर निर्भर करती है। छोटे स्तर पर शुरू करते हैं, तो भी प्रतिमाह 10 से 15 हजार रुपए या इससे अधिक कमा सकते हैं। बड़े स्तर के काम और मार्केट में पकड़ है तो आप 25-30 हजार रुपए से साठ हजार रुपए प्रतिमाह तक कमा सकते हैं। अगर आप डेकोरेशन का काम भी साथसाथ करते हैं, तब आपकी इन्कम और भी अधिक हो सकती है।

प्रशिक्षण अवधि

अधिकतर संस्थानों में एक सप्ताह से एक महीने का कोर्स होता है। किसी में तीन महीने का भी कोर्स

मौजूद है, जबकि कुछ संस्थान इसी में डेकोरेशन और फ्लावर मेकिंग से संबंधित हस्तकला शिल्प के हुनर सिखाते हैं। यह कोर्स एक साल का होता है। खादी ग्रामोद्योग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान क्राफ्ट एंड सोशल डिवेलपमेंट ऑर्गनाइजेशन में एक सप्ताह से एक माह तक के कोर्स कराए जाते हैं।

जरूरी योग्यता

वैसे तो आपका साक्षर होना पर्याप्त है, लेकिन कुछ संस्थान 10वीं और कुछ संस्थान 12वीं पास होना अनिवार्य मानते हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन, फ्रीस देने की कैपेसिटी और जरूरत के हिसाब से प्रवेश ले सकते हैं।

कैसे लें प्रशिक्षण

खादी ग्रामोद्योग से मान्यता प्राप्त केंद्र से प्रशिक्षण लेने के लिए आपको प्रॉम्प्ट टस खरीदना होगा। इसके अतिरिक्त आप किसी स्थापित फर्म में नौकरी करके भी अनुभव बढ़ा सकते हैं।




नये मौकों की राह है फिजिकल साइंस

'बीएससी इन फिजिकल साइंस' नाम से जाना जाने वाला कोर्स छात्रों को एमएससी स्तर पर साइंस की विभिन्न शाखाओं में जाने की राह तो दिखाता ही है, उन्हें स्नातक करने के बाद करियर की अलग-अलग दिशाओं में जाने की भी राह दिखाता है। अगर साइंस ग्रेजुएट बनकर नौकरी करने की इच्छा है तो यह कोर्स ऐसे छात्रों के लिए अच्छा विकल्प है, हालांकि इस कोर्स को करने के बाद एमएससी में भी एडमिशन लिया जा सकता है

अगर स्नातक स्तर पर साइंस की विभिन्न शाखाओं के बीच विचरण करना चाहते हैं, फिजिक्स के साथ-साथ रसायनशास्त्र और गणित जैसे विषयों को पढ़ने की तमन्ना है तो ऐसे छात्रों के लिए दिल्ली विविद्यालय का 'बीएससी इन फिजिकल साइंस' एक बेहतर विकल्प है। जनरल साइंस के रूप में लंबे अरसे तक चलने वाला यह कोर्स अब नाम बदलकर फिजिकल साइंस में तब्दील हो गया है। चार वर्षीय कोर्स में इसे खत्म कर दिया गया था लेकिन तीन वर्षीय कोर्स में यह फिर से बहाल हो गया है। अब इसे बीएससी इन फिजिकल साइंस के नाम से जाना जाता है। यह कोर्स छात्रों को एमएससी स्तर पर साइंस की विभिन्न शाखाओं में जाने की राह तो दिखाता ही है, उन्हें स्नातक करने के बाद भी करियर की अलग-अलग दिशाओं में जाने की राह भी दिखाता है। अगर साइंस ग्रेजुएट बनकर नौकरी करने की इच्छा है तो यह कोर्स ऐसे छात्रों के लिए अच्छा विकल्प है।

कैसा है कोर्स

यह कोर्स साइंस का मिला-जुला कोर्स है, जो बारहवीं तक भौतिकी, गणित, रसायनशास्त्र और कंप्यूटर साइंस जैसे विषय पढ़ने वाले छात्रों को आगे भी विभिन्न विषयों को पढ़ने की छूट देता है। इसमें छात्र भौतिकी और गणित को मुख्य पेपर के रूप में तीनों साल तो पढ़ते ही हैं। इसके अलावा, विकल्प के रूप में एक और पेपर को भी तीनों साल पढ़ना होता है। इसमें छात्रों को कई च्वाइस



दी जाती है। मसलन, कोई चाहे तो तीन सालों तक भौतिकी और गणित के साथ-साथ रसायनशास्त्र को मुख्य पेपर के रूप चुन सकता है। जो छात्र रसायनशास्त्र नहीं रखना चाहता उसे इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में से किसी एक को मुख्य पेपर के रूप में चुनने की छूट मिलती है। तीन साल में तीन विषयों के अलावा कई और पेपर भी पढ़ने होते हैं। छात्रों को अब टेक्नीकल राइटिंग एंड कम्युनिकेशन यानी अंग्रेजी का एक पेपर पहले साल पढ़ना होता है। इसके अलावा, कंप्यूटेशनल स्किल का एक पेपर और दूसरे साल में इंटीग्रेशन टू बायोलॉजी और फिर सोलहवें पेपर के रूप में बायोलॉजी पढ़ना होता है। तीन सालों में कुल 24 पेपर पास करना होता है। छात्रों को कैंकेंट कोर्स के तहत भी दो पेपर चुनने होते हैं। अगर किसी ने फिजिकल

साइंस में भौतिकी और गणित के अलावा रसायनशास्त्र के छह पेपर चुने हैं तो उसे कंप्यूटर साइंस से या इलेक्ट्रॉनिक्स से दो कैंकेंट पेपर का चुनाव करना होता है। इसी तरह, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस से छह पेपर चुनने वालों को दो कैंकेंट पेपर का चुनाव करना होता है। दिल्ली विविद्यालय में पहले इस कोर्स को पढ़ाई करने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा यानी एमएससी करने में खासी दिक्कत आती थी। उन्हें ऑनर्स कोर्स के मुकाबले काफी नीचे रखा जाता था लेकिन अब एमएससी में प्रवेश परीक्षा होने के कारण इस कोर्स के छात्र यहां एडमिशन पा लेते हैं। यह कोर्स छात्रों को तीन विषयों को पढ़ने का व्यापक नजरिया प्रदान करता है। यहां किसी एक विषय के इर्द-गिर्द ही चकराट नहीं होता। इसमें तीन पेपर पर ज्यादा जोर

देने से छात्रों को एमबीए और आईएएस परीक्षा की तैयारी में काफी मदद मिलती है।

शाखाएं

इसमें मुख्य रूप से बीएससी इन फिजिकल साइंस तो है ही। इसके अलावा, स्पेशलाइज्ड पेपर चुनने पर फिजिकल साइंस विद् कंप्यूटर साइंस और फिजिकल साइंस विद् इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजें भी आकर जुड़ जाती हैं।

दाखिला कैसे

छीयू के कॉलेजों में इस कोर्स में दाखिला बारहवीं की मेरिट के आधार पर दिया जाता है। साइंस के छात्रों के लिए बारहवीं में भौतिकी, गणित और रसायनशास्त्र पढ़ा होना जरूरी है तभी उसे दाखिला दिया जाता है। दाखिले का कट ऑफ ऑनर्स कोर्स के मुकाबले नीचे होता है। चार लिस्ट के बाद दिल्ली विविद्यालय में अब गिने-चुने कॉलेजों में ही इस कोर्स में दाखिले के मौके बचे हैं।

अवसर कहां

स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद छात्रों को आगे की शिक्षा के लिए किसी न किसी क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड होना पड़ता है। यह कोर्स जनरल साइंस है, इसलिए आगे बढ़ने का विकल्प थोड़ा कठिन होता है। लेकिन बहुत सारे छात्र इन बाधाओं को पारकर मौका पाते हैं। सामान्य तौर पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होकर बैंक व अन्य निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरी कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र की ओर देखें तो यूपीएससी की

संस्थान

इस कोर्स की पढ़ाई दिल्ली विविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में होती है। करीब 25 ऐसे कॉलेज हैं जहां अलग-अलग रूपों में फिजिकल साइंस चल रहा है। इसके अलावा, दूसरे विविद्यालय भी जनरल साइंस के छात्रों को अपने यहां साइंस ग्रेजुएट बनाने के लिए यह कोर्स चला रहे हैं-

- दिल्ली विविद्यालय, दिल्ली
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विविद्यालय, नई दिल्ली
- आगरा विविद्यालय, आगरा
- महर्षि दयानंद विविद्यालय, रोहतक
- चौधरी चरण सिंह विविद्यालय, मेरठ

सिविल सेवा की परीक्षा में सफल होकर आईएएस, आईपीएस बन सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं। एमबीए या एमएसए कर सकते हैं। सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में लेब असिस्टेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। स्कूलों में साइंस के शिक्षक बन सकते हैं।

वेतन

सामान्य रूप से स्नातक की डिग्री लेकर नौकरी की तलाश करने पर किसी संस्थान में शुरुआती तौर पर 25 से 30 हजार रुपये की नौकरी मिल जाती है। उच्च शिक्षा यानी एमएससी के बाद कॉलेज शिक्षण और रिसर्च एसोसिएट के रूप में वेतनमान शुरुआती तौर पर 40 से 45 हजार रुपये हैं। साइंस शिक्षक के रूप में कोचिंग संस्थान खोलकर स्वरोजगार भी कर सकते हैं।



शरीर में उत्पन्न होने वाली कई नई-पुरानी व्याधियों को दूर करने के लिए जापान की सकनीरा एसोसिएशन द्वारा पानी के प्रयोग का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। पानी के द्वारा रोगों को दूर करने की यह सादी-सरल विधि है। भारत जैसे गरीब देश के लिए तो यह विधि बिना पैसा खर्च की चमत्कारी पद्धति सिद्ध हो सकती है।

सैहत का राज

बस 4 ग्लास पानी एक साथ

सिरदर्द, उच्च रक्तचाप, खून की कमी, मोटापा, बेहोशी, दमा, खांसी, लीवर की कमजोरी, पेशाब की बीमारी, गैस, कब्ज, एसीडिटी, कमजोरी, आंख की बीमारी, मानसिक रोग, महिलाओं को होने वाली बीमारियाँ एवं शरीर में उत्पन्न होने वाली कई नई-पुरानी व्याधियों को दूर करने के लिए जापान की सकनीरा एसोसिएशन द्वारा पानी के प्रयोग का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। पानी के द्वारा रोगों को दूर करने की यह सादी-सरल विधि है। भारत जैसे गरीब देश के लिए तो यह विधि बिना पैसा खर्च की चमत्कारी पद्धति सिद्ध हो सकती है। कमी है तो बस इसके जनसाधारण के बीच प्रसार की।

पानी प्रयोग की विधि क्या है

सुबह उठकर बिस्तर में बैठ जाएं और चार बड़े ग्लास भरकर (लगभग एक लीटर) पानी एक ही समय एक साथ पी जाएं। ध्यान रहे कि पानी पीने के पहले मुंह न धोएं, न ब्रश करें तथा शौचकर्म भी न करें। पानी पीने के बाद थुके नहीं। पानी पीने के पीन घंटे बाद आप ब्रश/दातुन, मुंह धोना, शौचकर्म इत्यादि नित्यकर्म कर सकते हैं। जो व्यक्ति बीमार या कमजोर काया के हैं और वे एक साथ चार ग्लास पानी नहीं पी सकते तो उन्हें शुरुआत एक-दो ग्लास पानी से करना चाहिए तथा धीरे-धीरे चार ग्लास तक बढ़ाना चाहिए। साथ ही भोजन करने के बाद लगभग दो घंटे पानी न पिया जाए तो अति उत्तम रहेगा। चार ग्लास पानी पीने की यह विधि स्वस्थ या बीमार, सभी के लिए अति लाभदायक सिद्ध हुई है। सकनीरा एसोसिएशन के अनुभव द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि कई बीमारियाँ इस प्रयोग से निम्नलिखित समय में दूर होती जाती हैं।

- मधुमेह एक माह के लगभग।
- उच्च रक्तचाप एक माह के लगभग।
- गैस दो सप्ताह के लगभग।
- टी.बी. छ. माह के लगभग।
- कब्जित-दो सप्ताह के लगभग।

सावधान रहें ताजातरिन सब्जियों से

यू तो हम हर रोज तरह-तरह की सब्जियाँ खाते हैं लेकिन वे ताजा होती हैं इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। हर रोज सामने आ रही बीमारियों के पीछे कहीं न कहीं एक कारण यह भी है कि आज इसान को थुद्ध और ताजा आहार नसीब नहीं हो पा रहा। मिलावट और रसायन संरक्षण से सब्जियाँ भी अक्षुती नहीं हैं।

सब्जी विक्रेता आज या तो रसायन में संरक्षित कर रखी गई सब्जियाँ बेचते हैं या फिर मुनाफे के चक्र में लौकी जैसी सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए उनमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा देते हैं। आहार विशेषज्ञ का कहना है कि लोगों को अपने आहार में ताजा सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसी सब्जियों के सेवन से बचना चाहिए जो बहुत दिनों से संरक्षित कर रखी गई हों। ताजा सब्जियाँ जहाँ खाने में स्वादिष्ट और पोषिक होती हैं वहीं उनमें विटामिन काबोहाइड्रेट और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में होते हैं लेकिन सावधानी यह जरूरी है कि सब्जियाँ सचमुच ताजा हों न कि उन्हें इंजेक्शन से ताजा बनाया गया हो। बाजार से सब्जियाँ खरीदते समय बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। यदि ऐसी सब्जी खरीद ली जाती है, जिसका आकार बढ़ाने के लिए या चमकदार दिखाने के लिए किसी रसायन का इस्तेमाल किया गया हो तो इससे पेट में अल्सर अम्लता और गैस बनने जैसी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। सब्जियों को संरक्षित कर रख दिए जाने

उनके पोषक तत्वों में कमी आ जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार सब्जी बनाने के बाद उसे बार-बार गर्म करके रात तक इस्तेमाल किया जाता रहे। ऐसा करने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और शरीर को कोई फायदा नहीं पहुंचता। एक बार सब्जी बनाने के बाद उसे कुछ घंटों के भीतर ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। सब्जी को फ्रिज में रख देने का मतलब यह नहीं है कि वह जरा भी खराब नहीं होगी। फ्रिज में रखी सब्जी को भी छह-सात घंटों के भीतर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसके बाद उसके पोषक तत्वों में ह्रास होने लगता है।



सिर्फ 5 आहार टंड में रखे सदाबहार

सर्द मौसम में व्यायाम करके अपने शरीर को गर्म व ऊर्जावान बनाए रखने के साथ ही अपने भोजन में ऐसी चीजों को शामिल करना भी जरूरी हो गया है जिनकी कम मात्रा लेने पर भी शरीर को भरपूर कैलोरी मिले। पेश है 5 ऐसे आहार जो आपको सर्दियों में तरोताजा और स्वस्थ बनाएंगे।

सलाद

आपके सुबह व शाम के भोजन में सलाद के लिए एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए। यदि आप कम कैलोरी और हाई फाइबर वाला फूड लेना चाहते हैं तो सलाद आपके लिए बेहतर विकल्प है। सलाद के लिए प्रयोग में आने वाली कच्ची सब्जियों व फलों में एंटीऑक्सीडेंट, नेचुरल एंजाइम और फाइबर होते हैं जो शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ ही भोजन के पाचन में भी सहायक होते हैं। इससे आपका वजन भी नियंत्रित रहता है। यदि आप सेहत के प्रति जागरूक हैं तो आपको रोजाना कम से कम एक बड़ा कप हरी सलाद खानी चाहिए।

छिलके वाली दालें

छिलके वाली दालों में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। प्रोटीन के साथ ही दालों में फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी आदि होता है। इनका रोजाना सेवन शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है जिससे आपका वजन नियंत्रित होता है।

पीले व खट्टे फल

फलों में सबसे अधिक गुणकारी खट्टे फल होते हैं। पीले व नारंगी रंग के फलों में बीटा कैरोटिन व एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। खट्टे फल विटामिन सी, कैल्शियम, मिनरल, फाइबर आदि का प्रमुख स्रोत होते हैं जो शरीर के विकास के लिए उपयोगी होते हैं। नींबू में मौजूद पेक्टिन शरीर में जमा वसा को गलाता है और पाचन प्रक्रिया को भी धीमा करता है जिससे खाने के बाद भी लगने वाली भूख शांत होती है। खट्टे फलों का सेवन डाइबीटिज, कैंसर, एनीमिया, मोतियाबिंद, अस्थमा, किडनी में पथरी आदि रोगों में लाभदायक होता है। इन फलों को निरंतर सेवन से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है।

तरल, जूस व ड्रिंक

भोजन के पूर्व या पश्चात यदि आप तरल पदार्थ लेने के आदी हैं तो इस सर्द मौसम में भी आप छाछ, लस्सी, दही व परूट जूस का सेवन कर सकते हैं। दही, छाछ व ताजे फलों का रस आपके शरीर के लिए गुणकारी होता है। खट्टे फलों में नींबू का रस वजन कम करने, डेटल कैंसर, बुखार, रक्त शुद्धि आदि में सहायक होता है। भोजन के बाद ली जाने वाली छाछ में दूध की अपेक्षा फेट की मात्रा कम होती है। यदि हम लिंकिड में नारियल पानी की बात करें तो इसमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने के साथ ही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, शर्करा व वसा की कम मात्रा होती है।

अंकुरित अनाज

अंकुरित किए जाने से अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा दुगुनी हो जाती है। चना, मूंग, सोयाबीन, मटर आदि को अंकुरित करके खाया जा सकता है। सर्दियों के मौसम में नाश्ते में अंकुरित अनाज को शामिल करना स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर है। भरपूर अंकुरित अनाज का सेवन आप सूख या सलाद के साथ भी कर सकते हैं। सुलभ, सरला, बनाने में आसान व पोषिक होने के कारण अंकुरित अनाज का सेवन आपके शरीर के लिए लाभदायक होता है। विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट आदि की भरपूर मात्रा होने के कारण अंकुरित अनाज हमारे भोजन के पाचन में भी सहायक होता है।

ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है विटामिन डी

ब्रिटेन के विशेषज्ञों का कहना है कि विटामिन डी के सेवन से स्तन कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। लंदन की सर्जन एवं प्रो. केफाह मोकबेल के अनुसार इससे एक हजार जिंदगियाँ प्रतिवर्ष बचाई जा सकती हैं, वैसे तो धूप विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है। लेकिन महिलाएं अक्सर अपनी दिनचर्या में इससे महरूम हो जाती हैं। प्रो. मोकबेल का दावा है कि 20 साल की आयु के बाद महिलाएं को प्रतिदिन एक विटामिन डी की गोली का सेवन करना चाहिए, इसके सेवन से स्वस्थ महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका काफी घट जाती है, महिलाओं में जरूरी विटामिन डी लेबल काफी उच्च स्तर का होता है, जो अक्सर कम हो जाता है, इसे मॉटेन करके खतरे को कम किया जा सकता है।

अध्ययन के अनुसार इसका (विटामिन डी की गोलियों का) खर्च काफी कम है और लाभ काफी अधिक क्योंकि इससे बड़ी परेशानी की आशंका काफी कम हो जाती है, एक अध्ययन के अनुसार, ब्रिटेन में हर साल 50 हजार महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में आ रही हैं, इसमें 1200 मौत के मुह में चली जाती हैं, अध्ययन के अनुसार, वैसे तो विटामिन डी हड्डियों की मजबूती में अहम रोल अदा करता है, लेकिन अब यह भी माना जाता है कि विटामिन डी इम्यून सिस्टम और कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने में भी लाभकारी है, यह दोनों कैंसर की रोक के अहम कारक हैं, अमेरिका के हार्वर्ड स्कूल और पब्लिक हेल्थ के अनुसार विटामिन डी की कमी से कई बड़ी बीमारियाँ जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, हृदय रोग, पलू, कई प्रकार के कैंसर, टीबी और स्केरोसिस का खतरा बढ़ जाता है, विटामिन डी हड्डियों की मजबूती में अहम रोल अदा करता है यह इम्यून सिस्टम और कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने में लाभकारी हेल्थ फैक्टर है,।

जरा संभलकर मम्मी टू बी...

गर्भावस्था के दौरान जरा सी असावधानी बरतने पर आपको कमर दर्द संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इससे बचने के लिए आइए जानते हैं क्या करें और क्या न करें

ऐसा न करें

- भारी वस्तुएं न उठाएं।
- कमर को झुकाएं नहीं।
- उल्टे-सीधे तरीके से न लेटें।
- जगने पर बिस्तर से झटके में न उठें।
- ज्यादा देर के लिए हाई हील न पहनें।
- कंधे पर भारी बैग लटकाकर न चले।
- हर काम अपने सिर पर लेने की कोशिश न करें।

ऐसा करें

- भारी वस्तुएं उठाने के लिए अपने पति या अपने किसी खास से कहें।
- कमर झुकाने के बजाय घुटनों के बल बैठें और अपनी कमर सीधी रखें।
- अपनी स्याइन को सीधा रखने के लिए जिस करवट लेटी है उस तरफ घुटनों के बीच में एक तकिया जरूर रखें।
- नींद से उठने पर पहले करवट लें। फिर अपने हाथों का सहारा लेकर बैठ जाएं।
- हाई हील के स्थान पर लो हील और फ्लैट जूते-चपल का ही इस्तेमाल करें। इससे आपकी पेल्विस और पीठ सीधी रहेगी।
- भारी बैग के बजाय बैक पैक का इस्तेमाल करें।
- जितना संभव हो घर के कामों की जिम्मेदारियाँ परिवार के सदस्यों को सौंपें। आपके साथ ही आने वाले नन्हें मेहमान को भी तो सुकून चाहिए।



लगातार तीन टी20 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने तिलक वर्मा

एजंसी राजकोटा। भारत के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने हैदराबाद के लिए मेघालय के खिलाफ सैद मुस्ताक अली ट्रॉफी के उद्घाटन मैच में अपने विस्फोटक शतक के बाद एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। वह पुरुष या महिला क्रिकेट में लगातार तीन टी 20 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 2007 में शुरू हुए टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी दर्ज किया। मैच के दौरान तिलक ने सिर्फ 67 गेंदों में 14 चौकों और 10 छक्कों की मदद से 151 रन बनाए। उनके रन 225.37 के स्ट्राइक रेट से आए। 22 वर्षीय तिलक ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर से बाहर लगातार दो शतक, संचुरियन में 107* और जोहान्सबर्ग में नाबाद 120 रन बनाकर टूर्नामेंट में प्रवेश किया। वह द्विपक्षीय श्रृंखला में 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' बने, उन्होंने चार मैचों में 140.00 की औसत और लगभग 199 के स्ट्राइक रेट से 280 रन बनाए। वह टी20 क्रिकेट में 150 से अधिक का स्कोर बनाने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी भी बने। महिला क्रिकेट में, महाराष्ट्र की ओर से खेल रही किरण नवगिरी ने 2022 में सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी में नागालैंड की ओर से खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 162 रन बनाए थे। तिलक ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए तेज गेंदबाज डिपू संगमा की 18 गेंदों में छह चौकों और तीन छक्कों की मदद से 50 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने एएमएफटी में पिछला सर्वोच्च स्कोर बनाया था, उन्होंने 2019 में सिकिम के खिलाफ मुंबई के लिए 71 गेंदों में सात चौकों और 15 छक्कों की मदद से 147 रन बनाए थे।

भारत के खिलाफ एकदिनी श्रृंखला के लिए हीली को आराम, ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगी ताहलिया मैकग्राथ

नई दिल्ली। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने भारत के खिलाफ आगामी तीन एकदिनीय मैचों की श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा कर दी है। चोट के कारण कप्तान एलिसा हीली को आराम दिया गया है, उनकी अनुपस्थिति में ताहलिया मैकग्राथ टीम की कप्तानी करेंगी। हीली चोट की चोट से उबर रही हैं, जो उन्हें महिला बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) मैच के दौरान लगी थी और उम्मीद है कि आगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए यह फिट हो जाएगी। अब तक साल का दूसरा भाग उनके लिए निराशाजनक रहा है, पर की चोट के कारण वह आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के दूसरे भाग में नहीं खेल पाईं, क्योंकि उनकी टीम सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका से हार गई थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के परफॉर्मंस हेड (महिला क्रिकेट) और राष्ट्रीय चयनकर्ता शॉन फ्लेगेलर ने कहा, एलिसा हीली के भारत के खिलाफ सीरीज से बाहर होने का फैसला एंशज को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, न्यूजीलैंड सीरीज के लिए उनकी उपलब्धता आगले कुछ हफ्तों में स्पष्ट हो जाएगी।

फिक्की करेगा खो खो फेडरेशन को 'इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड' से सम्मानित

नयी दिल्ली। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया को खेलों में उनके सहायनी योगदान के लिए 'इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024' से सम्मानित करेगा। फिक्की ने खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया को 'बेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन 2024' चुना है। यह पुरस्कार 14वें 'ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट' के दौरान 30 नवम्बर को खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल को फिक्की फेडरेशन हाउस में प्रदान किया जायेगा। फिक्की द्वारा खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया को भेजे गए पत्र में कहा, खेलों में आपके उत्कृष्ट योगदान और बेमिसाल समर्पण ने न केवल उत्कृष्टता में बेंच मार्क स्थापित किया है बल्कि असंख्य खिलाड़ियों को जीवन में ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित किया है यह पुरस्कार खो खो फेडरेशन के अथक परिश्रम, जूनून, उत्साह तथा देश के खेल मानचित्र में गहरी छाप छोड़ने के लिए प्रदान किया जायेगा। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने फिक्की को इस पुरस्कार के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि यह पुरस्कार प्राचीन भारतीय खेल के विकास और प्रोत्साहन के लिए खो खो फेडरेशन द्वारा किये गए सराहनीय कार्यों को पहचान है। उन्होंने कहा यह पुरस्कार से खो खो फेडरेशन को आगामी विश्वकप को बेहतरीन तरीके से आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

अंतिम सेकेंड के रोमांच में गुजरात जाएंट्स ने तेलुगु टाइटंस को 31-28 से हराया

नोएडा। गुजरात जाएंट्स ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेले गए प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन के 71वें मैच में तेलुगु टाइटंस को 31-28 के अंतर से हरा दिया। गुजरात को 12 मैचों में तीसरी जीत मिली है जबकि टाइटंस को इतने ही मुकामलों में पांचवीं हार मिली। गुजरात की जीत में परतीक दहिया (11), सोमवीर (3) और जितेंद्र यादव हीरो बनकर उभरे। यह सोमवीर ही हैं जिन्होंने अंतिम रेड पर आशीष नरवाल को सुपर टेकल गुजरात की जीत पक्की की। आशीष ने सात अंक जुटाए जबकि विजय मलिक (15) ने शानदार खेल दिखाया लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। अंक तालिका में अपनी स्थिति बदलने के लिए संघर्षरत जाएंट्स ने अच्छे शुरुआत करते तीन मिनिट में हुए 4-1 की लीड ले ली लेकिन टाइटंस ने जल्द ही स्कोर 3-4 कर दिया। इसके बाद आशीष ने जीतेंद्र का शिकार कर स्कोर बराबर कर दिया।

भारत ने स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक बोचे और बॉलिंग प्रतियोगिता में जीते 25 पदक

एजंसी नई दिल्ली। भारत ने त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आरक्युब मोनाड (जहां क्रमशः बोचे और बॉलिंग का आयोजन हुआ) में संपन्न हुई पहली स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक बोचे और बॉलिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 25 पदक हासिल किए। भारतीय बॉलिंग दल ने 14 पदक जीते, जिसमें चार स्वर्ण, छह रजत और चार कांस्य शामिल हैं। जबकि बोचे टीम ने 11 पदकों में एक स्वर्ण, चार रजत और छह कांस्य अपने नाम किए। महिला बॉलिंग टीम का प्रदर्शन खासतौर पर प्रभावशाली रहा, जिसमें भारत के चार स्वर्ण पदकों में से तीन पर कब्जा किया। श्रद्धा पटेल, नेहा सिंह, सिमरन पुजारा और संगीता नायक की चौकड़ी ने टीम इवेंट के फाइनल में मलेेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद श्रद्धा और सिमरन ने नेहा और संगीता नायक को डबलस इवेंट के फाइनल में हराकर टूर्नामेंट का अपना

एकमात्र स्वर्ण पदक प्रकाश वाघेला ने डिब्रीज-6 सिंगल्स में इभानस साहू को फाइनल में हराकर जीता। दोनों ने पहले डिब्रीज-3 डबलस में कांस्य जीता था, जबकि अंकिता और निरुपम डे की जोड़ी ने डिब्रीज 2 में कांस्य जीता। अंकिता और निरुपम ने डिब्रीज 5 और 8 में रजत पदक भी जीते। इन चारों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इवेंट में रजत पदक हासिल किया, जहां फाइनल में उनका सामना उज्बेकिस्तान से हुआ। बोचे में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक महिलाओं की डबलस (आयु वर्ग 22-29) श्रेणी में आया, जहां जी. सुभाषिणी और प्रियंका ने ऑस्ट्रेलिया को आंदियास डुडेंस कैथरीन और टेगन ओ'कीफ को फाइनल में हराया। इस श्रेणी में इंडोनेशिया की गोथा लारासती और डेना फिन्नी रहमावतरी ने कांस्य पदक जीता। पुरुष वर्ग में,



नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने दस खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए पंजाब एफसी को हराया

एजंसी नई दिल्ली। इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2024-25 अंतरराष्ट्रीय ब्रेक से लौट आई और नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए मुकामले में मेजबान पंजाब एफसी पर 2-1 से जीत हासिल की। हाईलैंडर्स की जीत में स्पेनिश स्ट्राइकर गिलमो फर्नांडीज ने 15वें और स्पेनिश मिडफिल्डर नेस्टर एल्बियाच ने 18वें मिनिट में गोल किए। नॉर्थईस्ट यूनाइटेड के कप्तान व स्पेनिश सेंटर-बैक मिगुएल जाबार्को को डिफेंस में मजबूत प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। आज घर में आधे समय तक एक ज्यादा खिलाड़ी से खेलने के बावजूद मिली हार से पंजाब एफसी के ग्रीक हेड कोच पेनागियोटिस डिलामोरिस निश्चित रूप से निराश होंगे। पंजाब एफसी सात मैचों में चार जीत और तीन हार



स्पेनिश हेड कोच जुआन पेद्रो बेनाली जरूख प्रसन्न होंगे। नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी नौ मैचों में चार जीत, तीन ड्रा और दो हार से 15 अंक लेकर तालिका में तीसरे से दूसरे स्थान पर आ गई है। मैच का

पहला गोल 15वें मिनिट में आया, जब स्पेनिश स्ट्राइकर गिलमो फर्नांडीज ने नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी को शुरुआती बढ़त दिलाते हुए स्कोर 1-0 कर दिया। एक जवाबी हमले में मोरोक्कन विंगर अलाएदीन अजाईने ने बॉक्स के अंदर घुसने के बाद बायों तरफ से क्रॉस डालकर गेंद को सेंटर किया, जहां योडू कर पहुंचे गिलमो ने दाहिने पैर से गेंद को गोल लाइन के पार पहुंचा दिया, जबकि पंजाब एफसी के गोलकीपर रवि कुमार आगे की तरफ डूबव लगाकर क्रॉस रोकने की कोशिश जरूरी की लेकिन विफल रहे। 18वें मिनिट में स्पेनिश मिडफिल्डर नेस्टर एल्बियाच ने गोल करके नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी को बढ़त को दोगुना करते हुए स्कोर 2-0 कर दिया। बारं फ्लैंक से राइट-बैक सुआंथोनुनू सामते ने बॉक्स के अंदर स्टूडिओ क्रॉस डाला, जिसे नेस्टर ने दाहिने पैर से शानदार वॉली लगाकर गेंद को टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर गोल जाल में जल्ला दिया जबकि

गोलकीपर रवि कुमार के पास बचाव का कोई मौका नहीं था। 88वें मिनिट में क्रोशियाई सेंटर-बैक इवान नोबोसेलेक ने गोल करके पंजाब एफसी को कुछ रहत पहुंचाते हुए स्कोर 1-2 कर दिया। दाहिनी तरफ से आए क्रॉस पर बोस्निया एंड हर्जेगोविना के विंगर अस्मिर सुत्जीक ने करारी बॉली लगाई, जिसे गोलकीपर गुरमीत सिंह ने बचा तो लिया लेकिन रिबाउंड पर गेद छड़ गज के खतरनाक इलाके में रही और वहां मौजूद इवान नोबोसेलेक ने दाहिने पैर से गेंद को लेफ्ट कॉर्नर के अंदर भेज दिया। नॉर्थईस्ट यूनाइटेड को हाफ टाइम ब्रेक से ठीक पहले झटका लगा, जब लेफ्ट-बैक दिनेश सिंह को लिंगमल ऑस्टीन के खिलाफ अपने बॉक्स के बाहर फाउल करते के लिए रेफरी राहुल कुमार गुप्ता ने स्ट्रीज टाइम के दौरान 45+4वें मिनिट में दूसरा येलो यानी रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर किया। इसके बाद हाईलैंडर्स को दस खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा।

एजंसी गुवाहाटी। दोपहिया वाहनों के लिए एफएमएससीआई इंडियन नेशनल रैली स्पिंट चैंपियनशिप (आईएनआरएससी) ईस्ट जोन राउंड के लिए गुवाहाटी, असम में आयोजित की जाएगी। एनएएमए गुवाहाटी स्पिंट रैली नामक यह आयोजन, गुवाहाटी से 60 किलोमीटर दूर स्थित सूर्य पीआरपी घाटी में होगा। खर के वागानों के बीच में आयोजित यह रैली पहड़ी इलाकों से होकर चुनौतीपूर्ण सवारी का वादा करती है, जिसमें खड़ी चढ़ाई और अचानक ढलान होती है, जो इसे सवारी के लिए एक वास्तविक परीक्षा बनाती है। यह आयोजन आईएनआरएससी-2डब्ल्यू के लिए क्वालीफाइंग राउंड के अंतिम दौर को चिह्नित करता है, जो इसे राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब हासिल करने का लक्ष्य रखने वाले प्रतिभागियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बनाता है। इस रैली में पूर्वोत्तर भारत से

लगभग 80 प्रतिभागियों के आने की उम्मीद है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप की 11 क्लासेस के अलावा, स्थानीय युवाओं के लिए एक अलग स्पिंट स्पोर्ट रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें आठ क्लासेस होंगी, जिनमें से प्रत्येक को अपनी ट्रॉफी और पुरस्कार मिलेंगे। इस प्रकार का उद्देश्य युवा सवारी को रैली की दुनिया से परिचित करना और उन्हें प्रतिस्पर्धी लेकिन सुरक्षित वातावरण में इस रोमांचक मोटरस्पोर्ट फॉर्म का अनुभव करने का मौका देना है। आईएनआरएससी के प्रमोटर फ्राद भथेना ने कहा, हम एफएमएससीआई इंडियन नेशनल रैली स्पिंट चैंपियनशिप को पूर्वोत्तर और मितियों रूप से गुवाहाटी में लाने के लिए एक रोमांचक चुनौती होने का वादा करता है, जिसमें अद्वितीय पहड़ी इलाके और पीआरपी घाटी की अलग-अलग परिस्थितियाँ हैं।

जॉर्जिया फिल्मर चोट के कारण शेष वर्ष के लिए क्रिकेट से बाहर

एजंसी वेलिंग्टन। न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की युवा सलामी बल्लेबाज जॉर्जिया फिल्मर चोट के कारण शेष वर्ष के लिए क्रिकेट मैदान से बाहर हो गई हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने रिविजर को जारी बयान में यह जानकारी दी। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बताया कि 20 वर्षीय खिलाड़ी को पिछले महीने भारत में एकदिनीय श्रृंखला के दौरान बाएं कुल्हे के जोड़ में दर्द का अनुभव हुआ था। न्यूजीलैंड से लौटने पर एमआरआई स्कैन और जांच से चोट की पुष्टि हुई। चोट का मतलब है कि फिल्मर क्रिसमस से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगी। साथ ही अधिकांश हैलीवर्टन जॉर्जिया शीलड और ड्रीम 11 सुपर स्पेसि श्रृंखला से पहले उनका न होना निश्चित रूप से हमारे लिए नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि विश्व कप और भारत में उनकी

आवश्यकता होगी तथा जनवरी में वह तीसरे गति से दौड़ने में पुनः वापसी करेंगी। ब्लाइट फर्नस के



मुख्य कोच बेन सॉयंगर ने कहा कि वह फिल्मर के लिए दुखी हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महत्वपूर्ण श्रृंखला से पहले उनका न होना निश्चित रूप से हमारे लिए नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि विश्व कप और भारत में उनकी

हालिया सफलता के बाद यह निराशाजनक है कि वह वेलिंग्टन ब्लेज और आगले महीने ऑस्ट्रेलिया

चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 26 नवंबर को आईसीसी की बैठक होने की संभावना

एजंसी नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की ओर से आगले साल (2025) फरवरी और मार्च के महीने में होने वाली आगामी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तारीखों और स्थानों के लिए आगले सप्ताह एक आपात बैठक आयोजित करने की संभावना है। ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, बैठक मंगलवार (26 नवंबर) को होने की संभावना है, जहां बैठक का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि क्या मार्की इवेंट पूरी तरह से पाकिस्तान में होगा या हाईब्रिड मॉडल में (जहां पाकिस्तान एक और देश के साथ टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जो अभी तय नहीं हुआ है)। बैठक तब निर्धारित की गई थी जब आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को लिखित रूप से बताया था कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने के लिए पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेगा,

जो 2025 की शुरुआत में आयोजित की जाएगी। पीसीबी ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान सरकार से परामर्श किया



और अपना रुख पेश करना चाह रहा है।हालांकि, पाकिस्तान बोर्ड ने कहा कि वे चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान की यात्रा करे क्योंकि उनकी टीम 2023 में आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप के दौरान भाई गई थी। पिछले साल, पाकिस्तान ने एशियाई

पर्थ टेस्ट : दूसरी पारी में भारत की मजबूत शुरुआत, यशस्वी-राहुल ने लगाया अर्धशतक, कुल बढ़त 218 रनों की हुई

एजंसी पर्थ। यहाँ पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई है। दोनों ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेलते हुए भारत को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया है। दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने बिना किसी नुकसान के 172 रन बना लिये हैं। यशस्वी जायसवाल शतक से केवल 10 रन दूर हैं और 90 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि केएल राहुल ने भी शानदार अर्धशतक लगाते हुए 62 रन बनाकर नाबाद हैं। भारत की कुल बढ़त 218 रनों की हो गई है।

ऑस्ट्रेलिया को 104 रनों पर समेटने के बाद भारत को यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने

शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया। हालांकि पिच भी पहली पारी की अपेक्षा दूसरी

पारी में सपाट दिखी, जिसका भारतीय बल्लेबाजों ने पूरा फायदा उठाया। अब तक दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 172 रनों की साझेदारी हो चुकी है। इससे पहले जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 104 रनों पर समेट दिया है। बुमराह ने 5 विकेट लिए। इसी के साथ पहली पारी के आधार पर भारत को 46 रनों की बढ़त मिली गई है। भारतीय टीम पहली पारी में केवल 150 रनों पर सिमट गई। भारत की तरफ से नीतीश रेड्डी ने सर्वाधिक 41 रन बनाए। नीतीश के अलावा ऋषभ पंत ने 37 और केएल राहुल ने 26 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश हेजलवुड ने 4, मिचेल स्टार्क, पैट कुमिंस और मिचेल मार्श ने 2-2 विकेट लिए।

11 और मेकसविनी ने 10 रन बनाए। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 5, हर्षित राणा ने 3 और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए। इससे पहले मैच में भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया और पूरी टीम केवल 150 रनों पर सिमट गई। भारत की तरफ से नीतीश रेड्डी ने सर्वाधिक 41 रन बनाए। नीतीश के अलावा ऋषभ पंत ने 37 और केएल राहुल ने 26 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश हेजलवुड ने 4, मिचेल स्टार्क, पैट कुमिंस और मिचेल मार्श ने 2-2 विकेट लिए।

टेस्ट गेंदबाजी औसत के मामले में दूसरे सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बने जसप्रीत बुमराह

एजंसी पर्थ। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला के पहले मैच में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों की सूची में जगह बनाई है।अपनी तेज गति के साथ, बुमराह ने पर्थ की पिच पर अपने तीखे स्पेल से आग लगा दी, जिससे पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी इकाई हिल गई। बुमराह ने गेंद को अपनी इच्छा के अनुसार चलाकर पारी की गति निर्धारित की और भारत को एक अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। अपने लुभावने स्पेल के साथ, बुमराह ने क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में सतह

पर सबसे अच्छे गेंदबाजों में अपना नाम दर्ज कराया। कम से कम 150 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में, बुमराह दूसरे सबसे बेहतर गेंदबाजों में शामिल हैं। ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, 178 टेस्ट विकेटों के साथ, बुमराह का औसत 20.16 है, उनसे आगे इंग्लैंड के दिग्गज दाएं हाथ के तेज गेंदबाज सिडनी बार्नर्स हैं, जिनका 16.43 का गेंदबाजी औसत है। अपने शानदार करियर के दौरान, बुमराह ने सिर्फ 27 मैचों में 189 विकेट चटकाए। 30 वर्षीय भारतीय तेज गेंदबाज ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई स्टार एलन डेविसन के 20.53 के शानदार टेस्ट गेंदबाजी औसत को पीछे छोड़ दिया।

ब्लारस्टर्स के गढ़ में धावा बोलने को तैयार चेन्नइयन एफसी

एजंसी कोच्चि। दक्षिण भारतीय प्रतिद्वंद्वियों के बीच रोमांच चरम पर होगा, जब केरला ब्लास्टर्स एफसी और चेन्नइयन एफसी रिविजर शाम इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2024-25 मुकामले के लिए यहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भिड़ेंगी। चेन्नइयन एफसी आठ मैचों में तीन जीत, तीन ड्रा और दो हार से 12 अंक लेकर तालिका में चौथे स्थान पर है। केरला ब्लास्टर्स एफसी आठ मैचों में दो जीत, दो ड्रा और चार हार से आठ अंक लेकर तालिका में 10वें स्थान पर है। चेन्नइयन एफसी ने 16 गोल किए हैं, जो किसी भी सीजन में आठ मैचों के बाद उनका सबसे बड़ा स्कोर है। मरीना माचान्स ने प्रति मैच विपक्षी टीम के बॉक्स के अंदर औसतन 25.3 टच किए हैं। चेन्नइयन एफसी ने फरवरी 2024 में केरला ब्लास्टर्स एफसी के

खिलाफ पिछले मैच 1-0 से जीता था, जो कि ब्लास्टर्स के खिलाफ अपने पिछले सात मुकामलों के



बाद आई थी।केरला ब्लास्टर्स ने अपने पिछले 15 घरेलू मैचों में से प्रत्येक में गोल किया है। आगामी मैच में एक गोल गोल के इतिहास में किसी भी टीम द्वारा घर पर सबसे लंबे समय तक गोल करने के

बाबर होगा। केरला ब्लास्टर्स ने आईएसएल 2024-25 में सबसे अधिक पेनल्टी (5) गंवाई हैं,

काफी गोल (16) खाए हैं और हमें इस समस्या का समाधान खोजने की जरूरत है। अगर हमने बहुत सारे गोल-स्कोरिंग अवसर भी गंवाए होते तो स्थिति और भी खराब होती।

स्काटिश हेड कोच ओवेन कांयल ने चेन्नइयन एफसी के समर्थकों के प्रति आभार व्यक्त किया जो केरला ब्लास्टर्स एफसी के खिलाफ मैच के लिए कोच्चि की यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा, केरला ब्लास्टर्स एफसी के खिलाफ अवे मैच के लिए कुछ सौ फैंस आएंगे। हम उनके आभारी हैं क्योंकि वे हर जगह हमारा समर्थन करते हैं। हम उनके चेहरों पर मुस्कान लाना चाहते हैं। बता दें कि दोनों टीमों में आईएसएल में एक-दूसरे के खिलाफ 22 मैच खेले हैं। केरला ब्लास्टर्स एफसी छह बार जीती है जबकि चेन्नइयन एफसी ने सात मुकामले जीते हैं। नौ मैच ड्रा रहे हैं।

कैलिफोर्निया गोल्डन ईगल्स और मैरीलैंड मावेरिक्स ने जीत के साथ किया यूएसपीएल सीजन 3 का आगाज

एजंसी फ्लॉरिडा (यूएसए)। कैलिफोर्निया गोल्डन ईगल्स और मैरीलैंड मावेरिक्स ने शानदार जीत दर्ज करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स प्रीमियर लीग (यूएसपीएल) सीजन 3 की धमाकेदार शुरुआत की है। फ्लॉरिडा के ब्रोवार्ड काउंटी स्टेडियम में आयोजित यूएसपीएल सीजन 3 के शुरुआती मैच में कैलिफोर्निया गोल्डन ईगल्स ने कैरोलिना ईगल्स को 29 रनों से हराया, जबकि

मैरीलैंड मावेरिक्स ने सीजन के दूसरे गेम में अटलांटा ब्लैककैप्स को 6 विकेट से हराकर जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए, गोल्डन ईगल्स ने नैमान अनवर के 64 और उमकुत चंद के 63 रन की बदौलत 20 ओवर में 2 विकेट पर 197 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में कैरोलिना ईगल्स की ओर से शायन जहांगीर ने रन गति को बढाने का प्रयास तो किया, लेकिन टीम लक्ष्य का पीछा करने में

असफल रही। नैमान अनवर को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मैच में मैरीलैंड मावेरिक्स ने अटलांटा ब्लैककैप्स पर 6 विकेट से जीत दर्ज की। पहले गेंदबाजी करते हुए मावेरिक्स ने एहसान आदिल के 5 विकेट की बदौलत ब्लैककैप्स को 19 ओवरों में 128 रनों पर रोक दिया। इसके लिए आदिल को प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी से नवाजा गया। जवाब में

मावेरिक्स ने 18 गेंद शेष रहते लक्ष्य को हासिल करते हुए जीत के साथ



अपने अभियान की शुरुआत की। यूनाइटेड स्टेट्स प्रीमियर लीग (यूएसपीएल) सीजन 3 की शुरुआत फ्लॉरिडा के ब्रोवार्ड काउंटी स्टेडियम में एक शानदार उद्घाटन समारोह के साथ हुई। समारोह के दौरान प्रशंसकों ने खुले दिल से सभी छह फ्रैंचाइजी कैरोलिना ईगल्स, अटलांटा ब्लैककैप्स, कैलिफोर्निया गोल्डन ईगल्स, मैरीलैंड मावेरिक्स, न्यू जर्सी टाइटंस और न्यूयॉर्क काउजॉय का अभिनन्दन किया।

कार्यक्रम के दौरान सभी टीम के कप्तान और फ्रैंचाइजी मालिकों ने भी सीजन 3 के लिए अपनी तैयारी और रणनीति के बारे में भी विचार साझा किए। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद मेजर डेनिस ग्रांट, कमिश्नर जॉन हॉजसन, रिचर्ड कैपबेल और लॉइडहिल शहर के रे मार्लिन और अन्य गणमान्य लोगों ने सभा को गर्मजोशी से संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका में जिस तरह से क्रिकेट को बढ़ावा मिल रहा है वो

वास्तव में काबिले तारीफ है और हम पूरी तरह से यूएसपीएल को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। इस दौरान यूएस प्रीमियर लीग के संस्थापक और अध्यक्ष जयदीप सिंह, यूएसपीएल के संस्थापक और अध्यक्ष संजीव सिंह ने लीग की यात्रा और आगे के दृष्टिकोण पर भी चर्चा की। जयदीप सिंह ने कहा, यूएस प्रीमियर लीग ने पिछले दो वर्षों में धीरे-धीरे अमेरिका और दुनिया भर में अपनी मजबूत फुटड बनाई है। इसको और विस्तृत करने के लिए मैचों को 15

अलग-अलग टीवी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर 15 से अधिक देशों में दुनिया के सभी कोनों में प्रसारित किया जा रहा है। लीग एक वैश्विक खेल मीडिया ब्रांड बनने के अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लीग में प्रतिदिन ट्विपल पर भी चर्चा की। जयदीप सिंह ने कहा, यूएस प्रीमियर लीग ने पिछले दो वर्षों में धीरे-धीरे अमेरिका और दुनिया भर में अपनी मजबूत फुटड बनाई है। इसको और विस्तृत करने के लिए मैचों को 15

अपने एक्टिवेशन को बिग बॉस की गलती मानती हैं

नायरा बनजी

कहा- पक्षपाती है ये शो



कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 18 से लगभग एक महीने पहले नायरा बनजी का पैक अप हो गया था. हाल ही में एक मीडिया पोर्टल को दिए हुए इंटरव्यू में नायरा ने अपने शो से बाहर होने को बिग बॉस की गलती बताया है. उन्होंने कहा कि वो खुद भी बिग बॉस के इस फैसले से शॉक थीं. नायरा को बिलकुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी शो से बाहर हो गई हैं. लेकिन नायरा ने बिग बॉस के पक्षपाती रवैये को अपने एक्टिवेशन का जिम्मेदार ठहराया है. इस इंटरव्यू में नायरा ने बिग बॉस पर कुछ इल्जाम भी लगाए हैं. नायरा का दावा है कि वो बिग बॉस 18 के घर में हर समय एक्टिव थी. सभी घरवाले उन्हें शो का स्टूडिंग कटेस्टेंट मानते थे. लेकिन नायरा ने कहा है कि बिग बॉस के घर में एक्टिव रहने के बावजूद मेकर्स ने उनके वीडियो एपिसोड में शामिल ही नहीं किए. वो बिग बॉस के एपिसोड से लगभग गायब हो गई थीं. वो अब भी कन्फ्यूज्ड हैं कि बिग बॉस ने उनके साथ ऐसा क्यों किया. यही वजह है कि वो अपने घर से बाहर निकल जाने को बिग बॉस की गलती मानती हैं. बिग बॉस अगर उन्हें एपिसोड में दिखाते तो शायद लोग उनसे जुड़ पाते और उन्हें इस तरह से खेल शुरू होने से पहले बाहर न होना पड़ता.

बिग बॉस पर फूटा गुस्सा

नायरा ने बिग बॉस क पक्षपाती बताते हुए कहा कि उन्होंने इस शो में जो झूठे झगड़े करते हैं, जो बिना जरूरत जोर-जोर से चिल्लाते हैं, उन्हें ही सपोर्ट किया है. लॉजिक से पेश आने वालों को इस बिग बॉस ने बिलकुल भी सपोर्ट नहीं किया. नायरा ने ये भी दावा किया है कि बिग बॉस के घर में उन्होंने और शहजादा धामी ने मिलकर बिग बॉस के घर में रहने वाले हर कटेस्टेंट को बेनकाब किया था, जो जानते थे कि उनके असली चेहरे क्या हैं? लेकिन वो कुछ कर पाए. इससे पहले उन्हें शो से बाहर कर दिया गया और नायरा के बाहर होने से 7 दिन बाद उनके अच्छे दोस्त शहजादा धामी भी बिग बॉस 18 से बाहर हो गए.



एआर रहमान के बचाव में आया उनका बेटा, मोहिनी डे से लिंकअप की खबरों पर कही ये बात



फेमस म्यूजिशियन एआर रहमान ने हाल ही में अपनी पत्नी सायरा बानो से तलाक की अनारडसमेंट कर दी. इस खबर के आने के बाद से लोगों में काफी चर्चा होने लगी. कई जगह एआर रहमान को लोगों ने ट्रोले करना भी शुरू कर दिया. हालांकि, लोगों के लिए ये काफी हैरान करने वाली खबर थी. एआर रहमान और सायरा बानो लगभग 29 साल से शादी के बंधन में बंधे थे. इन सभी चर्चाओं के बीच में म्यूजिशियन के बेटे ने अपने पिता को सपोर्ट करते हुए एक पोस्ट शेयर की है. 19 नवंबर को एआर रहमान और सायरा बानो की तलाक की खबरें आने के बाद से म्यूजिशियन ने लोगों को उनके पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करने की बात कही. इसके साथ ही उनके तलाक के दौरान कुछ लोगों का ये भी खबर फैलानी शुरू कर दी, जिसमें एआर रहमान का नाम उनकी बेसिस्ट मोहिनी डे के साथ जोड़ा जा रहा है. इस बीच उनके बेटे अमीन ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी बचपन की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उनके पिता की अभी की तस्वीर भी शामिल है. अमीन ने सिर्फ फोटो ही शेयर नहीं की बल्कि उनके पोस्ट किए इस फोटो पर लिखा था कि दोनों में उम्र के अलावा और क्या अंतर है ?

सच्चाई और सम्मान के महत्व को याद रखें

अमीन ने इसके साथ कैप्शन में लिखा कि मेरे पिता एक लेजेंड हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने अविश्वसनीय योगदान दिया है, बल्कि उन वैल्यू, रिस्पेक्ट और प्यार के लिए जिसे उन्होंने इतने सालों में कमाया है. उनके खिलाफ झूठी और बेसलेस अफवाहें फैलता देखना बहुत निराशाजनक है. आइए हम सभी को किसी के जीवन और विरासत के बारे में बोलते वक्त सच्चाई और सम्मान के महत्व को याद रखना चाहिए. ऐसी गलत सूचनाओं में शामिल होने या उन्हें फैलाने से बचें, हम सभी उनकी गरिमा और सम्मान को बनाए रखें.

साल 1995 में शादी के बंधन में बंधे थे

हालांकि, अमीन ने अपने पूरे पोस्ट में मोहिनी का नाम या उनके लिंकअप की खबरों को कहीं मेशन नहीं किया है, लेकिन लोगों के बीच चर्चा है कि ये पोस्ट उसी मामले से जुड़ा है. आर रहमान और सायरा बानो ने साल 1995 में शादी की थी, दोनों की ये शादी अरेंज मैरिज थी.

जिस फिल्म से साल 2026 को अपने नाम करने वाले हैं रणबीर कपूर, उसमें होगा शाहरुख खान का कैमियो



रणबीर कपूर के खाते में अभी 'रामायण' और 'एनिमल पार्क' जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनमें वो आने वाले समय में दिखेंगे. उनके पास एक और ऐसी फिल्म है, जिसके जरिए वो साल 2026 में धमाका करने की तैयारी में हैं. अब कहा जा रहा है कि उनकी उस फिल्म में शाहरुख खान भी नजर आने वाले हैं. हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है 'लव एंड वॉर', जिसे इंडियन सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली बना रहे हैं. आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. वहीं शाहरुख का नाम भी इस फिल्म से जुड़ रहा है.

कब शूटिंग शुरू करेंगे शाहरुख खान ?

बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की एक रिपोर्ट की मानें तो इस फिल्म में शाहरुख स्पेशल अपीयरेंस में नजर आ सकते हैं. ये भी कहा गया कि हाल ही में रूब ने इस बारे में बातचीत करने के लिए भंसाली के साथ एक मीटिंग भी की है. अगर सबकुछ सही रहा तो कहा जा रहा है कि शाहरुख जनवरी 2025 में इस फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं. ये भी बताया गया कि शाहरुख का रोल फिल्म के सेकेंड हाफ में होगा और रणबीर के किरदार के साथ उनका इंटेंस इंटैरैक्शन होगा. अब देखना होगा कि आगे इस बारे में और क्या कुछ जानकारी सामने निकलकर आती है. लेकिन अगर सच में शाहरुख इस फिल्म में नजर आते हैं तो ये रणबीर की फिल्म के लिए एक प्लस प्वाइंट होगा.

रणबीर कपूर की इन फिल्मों में भी दिखेंगे शाहरुख

ये पहली बार नहीं है जब शाहरुख रणबीर की किसी फिल्म में कैमियो करने वाले हैं. साल 2016 में करण जोहर के डायरेक्शन में 'पे दिल है मुश्किल' के नाम से एक फिल्म आई थी. किंग खान इस फिल्म गेस्ट अपीयरेंस रोल में थे. इसका अलावा वो 2022 में आई रणबीर की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' का भी हिस्सा थे.

बहरहाल, 'लव एंड वॉर' के अलावा साल 2026 में शाहरुख लीड रोल में भी एक फिल्म में नजर आने वाले हैं. उनकी उस फिल्म का टाइटल है 'किंग', जिसे सुजाय घोष डायरेक्ट कर रहे हैं. शाहरुख के साथ उनकी बेटी सुहाना भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. वो इस फिल्म के जरिए सिल्वर स्क्रीन डेब्यू कर रहे हैं.

नेशनल टीवी पर गर्लफ्रेंड

उन्नति

से किया ब्रेक अप,

दिग्विजय सिंह

राठी बोले- मैं सिंगल हूँ



दिग्विजय राठी को घरवालों ने बिग बॉस 18 के घर का नया टाइम गॉड बना दिया है. भले ही बिग बॉस 18 के घर में दिग्विजय सिंह को घरवालों का ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके फैंस अपने इस पर्सदीदा कटेस्टेंट के लिए बहुत खुश हैं. सलमान खान के शो में भले ही दिग्विजय सिंह ने कश्श कपूर के साथ एंटी की हो, लेकिन उनके चाहने वाले जानते हैं कि दिग्विजय उन्नति तोमर को डेट कर रहे थे. लेकिन अब दिग्विजय ने नेशनल टीवी पर सलमान खान के सामने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है. 'वीकेंड का वार' की शूटिंग के दौरान जब सलमान खान ने दिग्विजय को बताया कि दिग्विजय, यहाँ तुम अपने आपको सिंगल बता रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है. बिग बॉस में आने से पहले तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात की है. सलमान खान की बातें सुनने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि सर, मैं अभी सिंगल हूँ, बिग बॉस

18 के घर में एंटी करने से पहले मैंने उन्नति के साथ मेरा रिश्ता तोड़ने का फैसला लिया था और अभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है. मैं सिंगल हूँ. हालांकि दिग्विजय की इस सफाई के बाद सलमान खान ने उनसे क्या कहा ? ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है.

उन्नति ने लगाए थे कुछ इल्जाम



दरअसल दिग्विजय की कथित गर्लफ्रेंड उन्नति तोमर उनके बिग बॉस जाने से बेहद एवसाइटेड थीं.

शुरुआती दिनों में उन्होंने दिग्विजय को खूब सपोर्ट भी किया था. लेकिन एक दिन अचानक ऑनलाइन आकर उन्होंने कहा कि वो दिग्विजय के साथ अपने रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड हैं. दिग्विजय की पीआर टीम ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया है. वो न ही उनके पोस्ट शेयर करते हैं. न ही वो दिग्विजय के साथ उनका कौलैब अफ्रव कर रहे हैं. उनके इस रवैये से वो परेशान हो चुकी हैं.